



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23—मार्च 29, 2013 (चैत्र 2, 1935)

No. 12]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23—MARCH 29, 2013 (CHAITRA 2, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. आरएस/3/8(1)/2013/15-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 28 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :--

- (i) श्री मनीष मेहता
- (ii) श्री रजिस्टर त्यागी
- (iii) श्री संजय कुमार पांडे
- (iv) श्री देवेन्द्र कुमार
- (v) श्री सुरेश कुमार
- (vi) श्री दीपक सिंह परमार
- (vii) श्रीमती लक्ष्मी बसनल

(viii) श्री उरूजुल हसन

(ix) श्री पी. के. गौतम

(x) श्री अमोल प्रभाकर देशपांडे

(xi) श्री अजय कुमार

(xii) श्री सुरेन्द्र शंकर सिंह

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 27 फरवरी 2013

सं. आरएस/3/1(1)/2013/16-कार्मिक--श्री विमल कुमार, जिन्हें पूर्व में अधिसूचना सं. आरएस/3/1(1)/2012/63-कार्मिक, दिनांक 10 जुलाई, 2012 के अंतर्गत राज्य सभा सचिवालय में निदेशक के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 26 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 4 मार्च 2013

सं. आरएस/20/1/2013/17-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, डॉ. जयन्तीमाला देवी, संयुक्त निदेशक (भाषांतरण) 28 फरवरी, 2013 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गई।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस/3/8(1)/2013/18-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय के उप निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में निम्नलिखित व्यक्तियों को 03 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 तथा 8,000/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :--

- (i) श्री सुनील शौकीन
- (ii) श्री धर्म बीर शर्मा
- (iii) श्री शाजी ऑगस्टिन

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मार्च 2013

सं. ए-35013/1/2012-(प्रशासन)--राष्ट्रपति, श्री थॉमस चाको, क्षेत्रीय प्रबन्धक, बल मुख्यालय, सीमा सशस्त्र बल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एन.एस.सी.एस.) में वेतनमान 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड वेतन 8,900/- रु. (वेतन बैंड-4) में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 01 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हों, निदेशक के पद पर (उप-महानिरीक्षक के वेतनमान में) नियुक्त करते हैं।

एस. कामेश्वर, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 2013

सं. ए-32013/2/2011-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति जी, श्री कमल नयन प्रसाद, सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा), योजना आयोग को इस आयोग में तदर्थ आधार पर 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 + 4,800/- रु. के ग्रेड पे में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में 31.12.2012 (पूर्वाह्न) से 31.12.2012 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

वरीना नथानी, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. ए-20012/58/77-प्रशा.-IV--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री किशन लाल, अनुभाग अधिकारी, योजना आयोग दिनांक 28.02.2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वरीना नथानी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. एफ.6(1974)/2006-प्रशा.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री एस. लक्ष्मणन, आईईएस, निदेशक, योजना आयोग दिनांक 28.02.2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. ए-19012/65/2013-यूआईडीएआई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 13.02.2013 के पत्र सं. ए-12013/21/(अनुभाग अधिकारी/मुख्यालय)/11-यूआईडीएआई और गृह मंत्रालय (समन्वय निदेशालय) के दिनांक 22.02.2013 के कार्यालय आदेश सं. ए-14011/1(एफ.ए.)/2010-प्रशा.-II के अनुसरण में श्री सुन्दर सिंह बिष्ट ने दिनांक 28.02.2013 (पूर्वाह्न) से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, दिल्ली में 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड + 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

राजेश कुमार, उप निदेशक (स्थापना)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2013

सं. ए-12034/3/2012-प्रशा.-IV (वि.का.) भाग-II--राष्ट्रपति, श्री एस. एन. पाठक को दिनांक 27.11.2012 (पूर्वाह्न) से माननीय विधि और न्याय मंत्री (डॉ. अश्विनी कुमार) के वैयक्तिक अनुभाग में वेतन बैंड पी.बी.-3 रु. 15,600--39,100/- में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन सहित अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री एस. एन. पाठक की यह नियुक्ति माननीय विधि और न्याय मंत्री डॉ. अश्विनी कुमार के प्रसादपर्यन्त है और उनके कार्यकाल की सहवर्ती है।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. ए-38012/08/2012-प्रशा.-IV (वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, डॉ. टेकचंद कौशिक, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता एवं प्रभारी, शाखा सचिवालय, मुम्बई दिनांक 28 फरवरी, 2013 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2013

सं. 20/जी/3151-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की अनुभाग अधिकारी श्रीमती कमलेश भारद्वाज की दिनांक 03.02.2013 को हुए निधन की उद्घोषणा करते हैं।

सुरजीत घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2013

सं. आई-14013/108/2012-आईपीएस-1--माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओ. ए. सं. 2578/2012 में पारित दिनांक 04.10.2012 के आदेश के आलोक में दिनांक 31.12.2012 को हुई रिव्यू बैठक की अनुशंसा जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 28.02.2013 को अनुमोदित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप श्री राजीव रंजन का नाम चयन सूची 2010 के क्रम संख्या 13-ए पर जो श्री ब्रह्म सिंह (क्रम संख्या 13) और श्री ब्रज किशोर सिंह (क्रम संख्या 14) के बीच में सम्मिलित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्य क्षेत्र पुलिस सेवा के श्री राजीव रंजन (जन्म तिथि 01.02.1962) को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम एवं संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग का संघ राज्य क्षेत्र खण्ड प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

दिनांक 7 मार्च 2013

सं. आई-14011/3/2012-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 04.03.2013 को चयन समिति की दिनांक 26.10.2012 की

बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2010 और 2011 की उन चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग के मणिपुर खण्ड में 9 एवं 4 कुल 13 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु मणिपुर पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2010

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	मिस आर. के. डुसुना देवी	14.12.1963
2.	जॉन शेलशी शेलहन	01.03.1956
3.	टीएच. ब्रोजन सिंह	01.11.1961
4.	टीएच. राधेश्याम सिंह	13.08.1964
5.	श्रीमती ममता वाहेंगबाम	01.03.1965
6.	टीएच. बसन्ताकुमार सिंह	01.01.1965
7.	श्रीमती आचन हाओकिप	11.04.1964
8.	फौमई गौगलीन	01.01.1965
9.	तोंसिंग कोसिंग अनल	01.01.1959

चयन सूची-2011

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1.	मो. फिरोज खान	01.03.1957
2.	एन. मनिमोहन सिंह	27.05.1958
3.	के. चाओबा लोखो माओ	07.03.1963
4.	एस. अमीरलाल शर्मा	01.03.1962

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/3/2012-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मणिपुर राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के

अन्तर्गत में मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग का मणिपुर खण्ड प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2010

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	मिस आर. के. टुडुसना देवी	14.12.1963
2.	जॉन शेलशी शेलहन	01.03.1956
3.	टीएच. ब्रोजन सिंह	01.11.1961
4.	टीएच. राधेश्याम सिंह	13.08.1964
5.	श्रीमती ममता वाहेंगबाम	01.03.1965
6.	टीएच. बसन्ताकुमार सिंह	01.01.1965
7.	श्रीमती आचन हाओकिप	11.04.1964
8.	फौमई गौंगलीन	01.01.1965
9.	तोंसिंग कोसिंग अनल	01.01.1959

चयन सूची-2011

1.	मो. फिरोज खान	01.03.1957
2.	एन. मनमोहन सिंह	27.05.1958
3.	के. चाओबा लोखो माओ	07.03.1963
4.	एस. अमीरलाल शर्मा	01.03.1962

2. विविध सिविल आवेदन संख्या 556/2003 में पारित माननीय गोहाटी उच्च न्यायालय, ईम्फाल पीठ के आदेश दिनांक 06.05.2005 के आलोक में वरिष्ठता सूची दिनांक 26.09.2003 के अन्तर्गत हुई पदोन्नतियां श्री एस. मनोबी सिंह एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका सिविल नं. 8982/2003 (गोहाटी)/195/2004 (ईम्फाल) के परिणाम के अध्वधीन होंगी।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

आपदा प्रबंधन प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. 44-8/2009-एन.डी.एम.-II--कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.02.2013 के आदेश संख्या 3/7/2013-ईओ (एसएम) के अनुसरण में राष्ट्रपति, डॉ. श्याम एस. अग्रवाल, आईएस (राजस्थान:80) को 15.02.2013 (पूर्वाह्न) से गृह मंत्रालय के अधीन अपर सचिव के रैंक एवं वेतन में सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आशीष कुमार पांडा, अवर सचिव (डीएम-II)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. ए-32013/2/2013-प्रशा.-I--केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत ईओ प्रभाग के दिनांक 09 जनवरी, 2013 के आदेश संख्या 6/17/2012-ईओ (एमएम-I) द्वारा निदेशक के रूप में उनके चयन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति श्री एम. देवराज, आईएस (यूपी:1996) को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतन बैंड-4 (पीबी-4) रु. 37,400--67,000/- + रु. 8,700/- (ग्रेड वेतन) में दिनांक 25 फरवरी, 2013 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

जयन्ती श्रीराम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2013

सं. 14015/12/2011-अ.भा.से (I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2009 की प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत केरल संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 30 नवम्बर, 2012 को तैयार किए गए तथा विनियम 7(2) के तहत 07.02.2013 को अनुमोदित निम्नलिखित नामों को समाविष्ट करते हुए केरल राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :--

2009 की प्रवर सूची (01.01.2009 से 31.12.2009 के बीच उद्भूत रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
1.	श्रीमती पी. मार्यकुट्टी (अ.ज.जा.)	18.06.1958
2.	श्री बी. मोहनन (अ.जा.)	10.04.1955

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/12/2011-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2009 की प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए केरल राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त

करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत केरल संवर्ग आवंटित करते हैं :--

2009 की प्रवर सूची (01.01.2009 से 31.12.2009 के बीच उद्भूत रिक्तियों के लिए)

श्रीमती पी. मार्यकुट्टी (अ.ज.जा.)

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2013

सं. 24011/03/2008-स्थापना(ख)--62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एन. के. रघुपति ने दिनांक 02 मार्च, 2013 (अपराह्न) से कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का पद त्याग दिया है।

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2013

सं. डीIII/460/सीएफ-53/2012--राष्ट्रपति, मुम्बई में चीनी जनवादी गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में श्री ल्यू युफा की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री ल्यू युफा के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य होगा, जिसका केन्द्र मुम्बई होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. 11 : (फा.सं. ए-50050/127/2012-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने दी गई तारीख से और अगले आदेशों तक राजस्व विभाग में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख
1.	श्री आर. के. मीना	04.02.2013 (पूर्वाह्न)
2.	श्री राम पराशर	31.01.2013 (पूर्वाह्न)

2. इन अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति प्रारंभ में 30.06.2013 तक अथवा अगले आदेशों तक होगी। उपर्युक्त अनुभाग अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :--

- यह तदर्थ नियुक्तियां नियुक्त किए गए व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- यह तदर्थ नियुक्तियां या तो वरिष्ठ कोटे अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल डी सी ई) के माध्यम से अथवा अगले आदेशों तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक जारी रहेंगी। यदि तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति, नियमित नियुक्ति के लिए इन दोनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं तो नियमित अनुभाग

सं. 14015/12/2012-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2012 की प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत केरल संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत 21 दिसम्बर, 2012 को तैयार किए गए तथा विनियम 7(1) के तहत 12.02.2013 को अनुमोदित किए गए निम्नलिखित नाम को समाविष्ट करते हुए केरल के गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :--

2012 की प्रवर सूची (01.01.2011 से 31.12.2011 के बीच उद्भूत रिक्तियों के लिए)

श्री एन. पदमकुमार

20.12.1960

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/12/2012-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2012 की प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए केरल के गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत केरल संवर्ग आवंटित करते हैं :--

2012 की प्रवर सूची (01.01.2011 से 31.12.2011 के बीच उद्भूत रिक्तियों के विरुद्ध)

श्री एन. पदमकुमार

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

अधिकारी उपलब्ध हो जाने पर उन्हें इन नियमित अधिकारियों के ड्यूटी ज्वाइन करने की तारीख से वापिस सहायक ग्रेड में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवंटित उनके संवर्ग यूनिट में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. 12: (फा.सं. ए-19012/3/2013-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्रीमती प्रकृति श्रीवास्तव, भारतीय वन सेवा (केरल:1990) को दिनांक 18.02.2013 (पूर्वाह्न) से 08.05.2016 तक की अवधि के लिए (दोनों कार्यावधियों अर्थात् गैर-सीएसएस और सीएसएस दोनों को मिलाकर सात वर्ष का संयुक्त कार्यकाल) अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 मार्च 2013

सं. 13: (फा.सं. ए-38014/15/2012-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री रति राम यादव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 28.02.2013 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

सं. 14: (फा.सं. ए-38014/14/2012-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री आदर्श कुमार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 28.02.2013 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 4 मार्च 2013

सं. 15: (फा.सं. ए-19013/03/2013-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, सुश्री हिमानी भयाना, (भारतीय राजस्व सेवा : सी.शु. एवं के.उ.शु.) को दिनांक 28.02.2013 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सी.शु. एवं के.उ.शु. बोर्ड, राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2013

सं. ए-35011/5/2011-एडी.ईडी.(वो-II)--राष्ट्रपति, श्रीमती एन. अन्ते, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नई II, को दिनांक 16.01.2013 (अपराह्न) से 16.01.2016 (अपराह्न) तक, 3 वर्षों की अवधि के लिए, अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में प्रतिनियुक्ति

आधार पर चेन्नई के आंचलिक कार्यालय में उप प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-35011/5/2011-एडी.ईडी.(वो-II)--राष्ट्रपति, श्री राम बदन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस को दिनांक 23.01.2013 (पूर्वाह्न) से 22.01.2016 (अपराह्न) तक, 3 वर्षों की अवधि के लिए, अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिल्ली में उप प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-35011/5/2011-एडी.ईडी.(वो-II)--राष्ट्रपति, श्री एच. एस. जैन, अधीक्षक, (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, थाणे-II) मुम्बई क्षेत्र-I को दिनांक 04.02.2013 (पूर्वाह्न) से 03.02.2016 (अपराह्न) तक, 3 वर्षों की अवधि के लिए, अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में प्रतिनियुक्ति आधार पर अहमदाबाद में उप प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-35011/5/2011-एडी.ईडी.(वो-II)--राष्ट्रपति, श्री एच. पी. सुधम दास, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बंगलौर-I को दिनांक 15.01.2013 (पूर्वाह्न) से 14.01.2016 (अपराह्न) तक, 3 वर्षों की अवधि के लिए, अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में प्रतिनियुक्ति आधार पर बंगलौर में उप प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2013

भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापनाएं

सं. 10/2013(फा.सं. सी-18011/47/2003-प्रशासन-II)--राष्ट्रपति, अधिसूचना सं. 25/2013 दिनांक 17.10.2003, फा.सं. ए-32012/14/2002-प्रशासन-II (खण्ड-II) के तहत श्री एस.एस. शर्मा (वर्ष 1992-93 के क्रम सं. 3) के बारे में सम्प्रेषित निर्णय का अधिक्रमण करते हुए श्री शिव स्वरूप शर्मा, भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), समूह-'क' के अधिकारी को 01.04.1990 से वर्ष 1990-91 के पैन्ल की एवज में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं और यह भी निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना सं. 3/2002, 3 मई, 2002, फाईल सं. 32012/3/2000-प्रशासन-II (खंड-II) की क्रम

सं.-4 में, पैनल वर्ष 1990-91 में उनके नाम को क्रम सं. 18 अ पर जो कि श्री आर.के. कपूर-II (क्रम सं-18) के नीचे और श्री राम तीरथ (क्रम सं.-19 के ऊपर) रखा जाएगा।

जोसफ अन्तेणि, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. ए-19011/336/2013-स्था.--राष्ट्रपति, श्री शंकर चन्द्र दास (सीएसएस की सीएसएल सं. 5306) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अवर सचिव को 19 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए, अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं :

2. यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अध्वधीन होगी:--

*यह तदर्थ नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका सं. 4097/20 (अरुण गौड़ बनाम गरिमा सिंह एवं अन्य), रिट याचिका सं. 4616/2011 (वी. एस. पाण्डे अन्य बनाम गरिमा सिंह एवं अन्य), रिट याचिका सं. 7619/2011 (यूपीएससी बनाम गरिमा सिंह एवं अन्य), रिट याचिका सं. 2176/2012 (भारत संघ बनाम गरिमा सिंह एवं अन्य) और अन्य संबद्ध रिट याचिका सं. डब्ल्यूपी(सी) 2523/2012 (भारत संघ बनाम अनंत किशोर सरन), रिट याचिका (सी) 2524/2012 (भारत संघ बनाम शेरशा अन्य), रिट याचिका (सी) 2525/2012 (भारत संघ बनाम सैयद इकराम रिजवी एवं अन्य), रिट याचिका (सी) 2526/2012 (भारत संघ बनाम संदीप कुमार गुप्ता), रिट याचिका (सी) 2527/2012 (भारत संघ बनाम सौम्या चट्टोपाध्याय एवं अन्य) और उच्चतम न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 9653/2012 (सैयद इकराम रिजवी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) तथा उपर्युक्त के अलावा किसी भी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के अध्वधीन है।

*यह नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 14.09.1992 के का.ज्ञा. सं. 22011/4/99-स्था.(ए) और 25.10.2004 के का.ज्ञा. सं. 22012/1/99 स्था.(डी) के अनुसार सतर्कता निर्बाधन के अध्वधीन है।

*इस तदर्थ नियुक्ति से पदधारी इस ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकेगा।

*ग्रेड में दी गई तदर्थ आधार पर सेवा उक्त ग्रेड में वरीयता के प्रयोजनार्थ या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए मान्य नहीं होगी।

*इस तदर्थ नियुक्ति से पदधारी को उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

विजय मल्होत्रा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. पीएफजी(2318)/पेंशन-एड-I--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के उप सचिव श्री उदयन चटर्जी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 28 फरवरी, 2013 के उपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

2. इसी तारीख से उनका नाम विभाग की नामावली से काट दिया जाएगा।

बिप्लब कुमार रॉय, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 फरवरी 2013

सं. पीएफजी(761)-2011-प्रशासन-II--भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान अधिकारी श्री गोपाल सिंह ने कार्यालय आदेश सं. ए-22011/1/2013-प्रशासन-II दिनांक 21.01.2013 द्वारा स्थानांतरण के परिणामस्वरूप मुख्यालय में दिनांक 04.02.2013 (पूर्वाह्न) से सहायक निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 मार्च 2013

सं. पीएफजी(1047)-2013-प्रशासन-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/8/2013-सी.एस.1 (यू) दिनांक 18.12.2013 द्वारा जल संसाधन मंत्रालय से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप सी.एस.एस. (सीएसएल सं. 5629) के अधिकारी श्री आनंद हरि अग्रवाल ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 01 मार्च, 2013 (पूर्वाह्न) से अवर सचिव के पद का प्रभार ग्रहण कर लिया है।

क्षितीश कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. 01/2013 (फा.सं. 6/2371/2005/पीईएन/एचआरडी-I)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय में कार्यरत श्री महेन्द्र सिंह, विदेश व्यापार विकास अधिकारी (सीएसएस) 28.02.2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

जी. ए. रेड्डी, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

सं. 02/2013 (फा.सं. 6/2590/2011/पीईएन/एचआरडी-I)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय में कार्यरत श्रीमती संतोष मदान, निजी सचिव (सीएसएसएस) 28.02.2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

जी. ए. रेड्डी, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2013

सं. ए-12022/01/2013-स्था.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निदेशक, श्री उमेश कुमार तिवारी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.01.2013 के आ.सं. 4/2/2013-सीएस.I (डी) द्वारा रोटेशन निति के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप दिनांक 01.02.2013 (पूर्वाह्न) से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. ए-12023/8/2012-स्था.-I--राष्ट्रपति, दिनांक 06.11.2012 के पूर्वाह्न से श्री एम. अन्नादुरई (आईआईएस : 1995) को निजी सचिव के रूप में 20.07.2014 तक उनकी शेष अवधि के लिए या मंत्री महोदय के कार्यकाल के साथ कार्यकाल समाप्त होने के आधार पर या मंत्री महोदय के निजी सचिव के रूप में कार्य की समाप्ति तक या अगले आदेशों तक, जो भी सबसे पहले हो, वेतनमान पीबी-3 (15,600--39,100/- रु.) + ग्रेड पे रु. 7,600/- की वेतन संरचना पर पार्ष्विक शिफ्ट आधार पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतर्क्षकन) का निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19012/1385/2012-स्था.-I--राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रीमती वलसम्मा थामस, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) को 28 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 5 मार्च 2013

शुद्धिपत्र

सं. ए-12023/8/2012-स्था.-I--वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री डॉ. एस. जगतर्क्षकन के निजी सचिव के रूप में श्री एम. अन्नादुरई (आईआईएस : 1995) की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 28.02.2012 के समसंख्यक अधिसूचना में 'वेतनमान की वेतन संरचना पीबी-3 (15,600--39,100/- रु.) + 7,600/- रु. ग्रेड पे' को शुद्धि पश्चात् "वेतन संरचना-वेतनमान-4 (37,400--67,000/- रु.) + 8,700/- रु. ग्रेड पे पढ़ा जाए"।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. ए-15012/1/2005-प्रशा./स्था.--सेन्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष का पद धारण करने के लिए सूचीबद्ध करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.02.2013 के आदेश सं. 21/3/2013/सी.एस. I(डी) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, कोयला मंत्रालय में निदेशक श्री अनिल कपूर (सीएसएल सं. 1518/1994) को 27.02.2013 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक सीएजी ग्रेड में संयुक्त सचिव (स्व-स्थाने) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 मार्च 2013

सं. ए-12023/2/2012-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री जय नाथ प्रसाद, केन्द्रीय विद्युत अभियांत्रिक सेवाएं (1998) को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में दिनांक 01.03.2013 पूर्वाह्न से पद ग्रहण करने की तारीख से अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो चार वर्षों की अवधि के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ज्योति माथुर, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2013

सं. ए-18011/153/2013-स्था.--राष्ट्रपति, श्री माधवलाल, भा.प्र.से. (जम्मू-कश्मीर : 1977) को सचिव के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में दिनांक 20.02.2013 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एल. हौकिप, उप सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. ए-22011/2/2007-स्था.II--राष्ट्रपति ने डॉ. ए. के. सिंगला को 01.06.2006 से वास्तविक वित्तीय लाभ देते हुए 01.02.2006 के स्थान पर 30.08.1999 से 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में वरिष्ठ विपणन अधिकारी के पद पर पूर्वदिनांकित पदोन्नति दी है।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2013

सं. ए-12011/10/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची के सहायक प्रोफेसर डॉ. दिनेश कुमार द्विवेदी को

15,600--39,100/- रु. (पी.बी.-3) के वेतन बैंड और 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में दिनांक 19 फरवरी, 2013 पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में नियमित आधार पर प्रोफेसर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

सं. ए-12011/10/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची के सहायक प्रोफेसर श्री मनीश प्रसाद को 15,600--39,100/- रु. (पी.बी.-3) के वेतन बैंड और 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में दिनांक 19 फरवरी, 2013 पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में नियमित आधार पर प्रोफेसर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

दिनांक 8 मार्च 2013

सं. ए-42011/1/2002-स्थापना (खंड-III)--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 07.02.2013 और 05.03.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12016/2/2012-एस.एस.एस. के अनुसरण में श्री सुरेन्द्र शाह (कर्मचारी कोड 4331), सांख्यिकीय अन्वेषक, ग्रेड-II को सांख्यिकीय अन्वेषक, ग्रेड-I (राजपत्रित) के पद पर पदोन्नत किया जाता है और रु. 9,300--34,800/- के संशोधित वेतन बैंड-2 में 4,600/- रु. ग्रेड वेतन सहित दिनांक 06.03.2013 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर उपभोक्ता मामले विभाग में तैनात किया जाता है।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी उपाय के रूप में और अन्तर को रोकने के प्रबंध के रूप में की जाती है और किसी भी समय बिना कोई कारण बताए वापिस ली जा सकती है/रद्द की जा सकती है। यह पदोन्नति श्री सुरेन्द्र शाह को किसी प्रकार की नियमित नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं देती है और तदर्थ सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ और पदोन्नति की पात्रता इत्यादि के लिए नहीं गिना जाएगा।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2013

सं. ए-38014/18/2012-स्था.1--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव श्री नन्द कुमार प्रसाद अधिवर्षिता की आयु होने पर 28 फरवरी, 2013 को अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 9 जनवरी 2013

सं. एसएम/01/10/2012--राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (नेटमो), कोलकाता में निम्नलिखित अनुसंधान अधिकारियों को दिनांक 03 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न/अपराह्न) से पदोन्नति आधार पर इस संगठन में 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.) में उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है :-

(i) डॉ. नूर मोहम्मद

(ii) श्री जयपाल सिंह

जी. विजयराघवन, उप सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2013

सं. एसएम/01/21/2012--राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (नेटमो), कोलकाता में निम्नलिखित अनुसंधान सहायक से संबंधित अधिकारियों, समूह 'ख' अराजपत्रित को दिनांक 27 नवम्बर, 2012 से पदोन्नति आधार पर इस संगठन में 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रु.) में वैज्ञानिक अधिकारी, समूह 'ख', अराजपत्रित के पद पर नियुक्त किया जाता है:-

(i) श्री बिर्जोय कुमार कुंदु

(ii) श्रीमती चित्रा मुखर्जी

(iii) श्री तपन कुमार मजूमदार

(iv) श्रीमती काजल बनर्जी

(v) श्रीमती चयनिका साहा

(vi) श्रीमती सरबानी चक्रवर्ती

(vii) श्री विजय सिंह

(viii) श्री सुप्रिया राहा

(ix) श्रीमती अल्पना चटर्जी

जी. विजयराघवन, उप सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 फरवरी 2013

सं. ए-12012/09/2005-पी-II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस-II(ए) (पीटी-III) के अनुसरण में श्री ओ. सी. भारद्वाज (सीएसएल सं. 276) को 17.07.2012 से ग्रेड पे 4,800/- रु. सहित पे बैंड-2, बैंड पे 9,300--34,800/- रु. में वर्ष 2010 की चयन सूची के लिए-केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अपने मूल संवर्ग में ठीक निचला नियम

के अंतर्गत प्रोफार्मा पदोन्नति पर निजी सचिव के पद पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में (जो झारखंड सरकार के आवासी आयुक्त के कार्यालय, नई दिल्ली, में वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं) नियुक्त करते हैं।

एम. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. ए-12012/03/2012-पी-II(.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.02.2013 के पत्राचार सं. 9/5/2013-ईओ (एसएम-1) के द्वारा संप्रेषित किए गए मंत्रिमंडल (एसीसी) की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के अनुसरण में दिनांक 25 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से श्री शशि शेखर, आईएएस (टीएन:81) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 67,000--79,000/- के वेतनमान में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. के. राय, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. ए-12025/13/2011-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. पवन कुमार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में शल्यक्रिया सहायक प्रोफेसर, के पद पर दिनांक 08 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2013

सं. ए-12025/95/2007-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रतिभा राठौर को 29.08.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. प्रतिभा राठौर को डाक विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. प्रतिभा राठौर अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/52/2009-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दीपक चंद गुप्ता को 08.06.2010 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. दीपक चंद गुप्ता को डाक विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में

तैनात किया जाता है। वे अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 7 मार्च 2013

सं. ए-12025/91/2009-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. हिमांशु गुप्ता को दिनांक 12 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/- ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. हिमांशु गुप्ता केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/221/2006-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. पंकज केशवराव पाटिल को 28.05.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. पंकज केशवराव पाटिल को सीजीएचएस, नागपुर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. पंकज केशवराव पाटिल अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 8 मार्च 2013

सं. ए-12025/14/2012-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अनुराग गोयल को दिनांक 15 मई, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- + के वेतनमान रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. अनुराग गोयल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/111/2006-सीएचएस--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सुभजित धर को 04.09.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. सुभजित धर को सीजीएचएस, दिल्ली के तहत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

वे अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/103/2006-सीएचएस--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. गुप्तेश्वर प्रसाद को 09.11.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) रु. 15,600/-39,100/- + रु. 5,400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. गुप्तेश्वर प्रसाद को सीजीएचएस, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 12 मार्च 2013

सं. ए-12025/58/2012-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. गिरधारी लाल सैनी को दिनांक 31 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (रु. 15,600/-39,100/- + रु. 5,400/- ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. गिरधारी लाल सैनी को ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. गिरधारी लाल सैनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2013

सं. ए-19011/01/2010-स्था.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/2/2013-ई ओ (एस एम-1) दिनांक 14 जनवरी, 2013 के अनुसरण में, वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष सचिव, श्री केशव एन. देसिराजू आई.ए.एस. (यू के:78) को, 31.01.2013 को सेवानिवृत्त हुए श्री प्रसन्न कुमार प्रधान, आई.ए.एस. (डब्ल्यू बी:77) के स्थान पर, 31 जनवरी, 2013 के अपराह्न से सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. ए-11013/05/2012-स्थापना-I(पार्ट)--राष्ट्रपति, आईओएफएचएस के चयन ग्रेड अधिकारी और वर्तमान में रक्षा मंत्रालय

में प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत डॉ. संदीप हल्दर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री ए. एच. के. चौधरी) की वैयक्तिक स्थापना में दिनांक 27.02.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक निदेशक स्तर पर विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री संदीप हल्दर की नियुक्ति पांच वर्षों की अवधि तक अथवा मंत्री महोदय के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा मंत्री महोदय के विशेषकार्य अधिकारी के रूप में कार्य छोड़ने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

एन. के. स्वामी, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. ए-32012/1/2006-स्था.-I आयुष--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा डॉ. रईस-उर-रहमान को 15.02.2013 (पूर्वाह्न) से 5 वर्षों की अवधि हेतु अथवा आगले आदेश तक, 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन + गैर चिकित्साभ्यास भत्ते सहित 37,400/-67,000/- रु. के वेतनमान (पीबी-4) में आयुष विभाग में सलाहकार (यूनानी) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2013

सं. 38013/22/2012-स्था.-I--श्री प्रेम सिंह, अनुभाग अधिकारी कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 28 फरवरी, 2013 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

संदीप कुमार, अवर सचिव

सं. 38013/21/2012-स्था.-I--श्री सुख लाल, अनुभाग अधिकारी कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 28 फरवरी, 2013 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

संदीप कुमार, अवर सचिव

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. ए-19016/01/2011-स्था.-I--राष्ट्रपति, सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती स्वर्ण कांता गुलाटी जो कृषि और सहकारिता विभाग की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा (सीएसएसएस) के प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं तथा इस निदेशालय में तैनात हैं, को दिनांक 01.02.2013

(पूर्वाह) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं।

आर. के. श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 13 फरवरी 2013

सं. 19016/01/2013-स्था.-1--अ.सा. के अंतर्गत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के दिनांक 07 फरवरी, 2013 के आदेश संख्या 12016/02/2012-एसएसएस के अनुसरण में राष्ट्रपति, इस निदेशालय में एसएसएस के सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II के रूप में कार्यरत श्री जॉन राक्सबर्ग पीटर, को पे बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए) + 4,600/- रुपए के ग्रेड पे में तदर्थ आधार पर दिनांक 08.02.2013 (पूर्वाह) से सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I (समूह-बी, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. के. श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. 2-29/2012-प्रशा.-5--राष्ट्रपति, श्री के. पी. रघुनाथ, कार्यालय अधीक्षक को कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय) के पद पर 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान बैंड (पी बी-3) में 05 फरवरी, 2013 (पूर्वाह) से पदोन्नत करते हैं। वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2013

सं. ए-19011/04/2013-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 30.05.2012 के पत्र सं. एफ-1/86 (35)/2010-आर-1 द्वारा की गई सिफारिश पर डॉ. ए. अरुण कुमार को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15,600--39,100/- रुपए के पीबी-3 + एन. पी. ए. (यथा अनुमेय) के वेतनमान में 01 मार्च, 2013 के पूर्वाह से पशुधन अधिकारी (समूह-क, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. बनर्जी, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 मार्च 2013

सं. ए-12036/03/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री एस. आर. मीना, भा. सां.से. (1993), महाप्रबंधक (सा.), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली

को 06 मार्च, 2013 के पूर्वाह से माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) के निजी स्टाफ में सह सामप्य (को-टर्मिनस) आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनूप कुमार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2013

सं. 5-21/2007-एमडीएम 2-1--स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में राष्ट्रीय जांच एवं अनुवीक्षण समिति की स्थापना की परिकल्पना निम्नलिखित के लिए की गई है:--

- (i) केन्द्र और राज्य सरकारों को नीतिगत परामर्श प्रदान करने के लिए।
- (ii) कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देशन के लिए।
- (iii) कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुवीक्षण, इसके प्रभाव के मूल्यांकन और सुधारात्मक उपाय करने के लिए।
- (iv) स्वतंत्र अनुवीक्षण मूल्यांकन एजेंसियों की रिपोर्टों पर कार्यवाई करने के लिए।
- (v) संबंधित विभागों, एजेंसियों (अर्थात् एफसीआई) तथा योजनाओं के बीच समन्वय और समाभिरूपता लाने के लिए।
- (vi) सामुदायिक सहायता देने और कार्यक्रम हेतु सार्वजनिक निधि भागीदारी को बढ़ाने के लिए।
- (vii) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, अनुवीक्षण और मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम से जुड़े अनुसंधान को करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों तथा अन्य उपयुक्त संस्थाओं का पता लगाने के लिए।

2. दिनांक 27 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या एफ- 5-21/2007-ईई-5 द्वारा गठित राष्ट्रीय जांच एवं अनुवीक्षण समिति को एतद्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठित किया जाता है:--

- (i) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, अध्यक्ष
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- (ii) वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पदेन सदस्य
- (iii) मुख्य सलाहकार/सलाहकार (शिक्षा) योजना पदेन सदस्य
आयोग
- (iv) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पदेन सदस्य
परिषद
- (v) कुलपति, एनयूईपीए पदेन सदस्य
- (vi) प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम पदेन सदस्य

निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से नीचे के नहीं) भी पदेन सदस्य होंगे (संबंधित सचिवों द्वारा नामित किए जाएंगे):—

- (i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- (ii) उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)
- (iii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- (iv) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)
- (v) शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
- (vi) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
- (vii) जनजातीय कार्य मंत्रालय
- (viii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

निम्नलिखित तेरह सदस्यों का नामांकन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा दो वर्षों की अवधि या उनके उत्तराधिकारी के नामांकन प्राप्त होने तक, जो भी बाद में हो, किया जाता है।

- पोषाहार के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ 1. निदेशक, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान
2. निदेशक, भारतीय पोषाहार फाउंडेशन
- चार व्यक्ति जिनमें से कम से 1. श्री बिराज पटनाइक, मुख्य सलाहकार
कम दो महिलाएं होंगी जिनका सर्वोच्च न्यायालय आयुक्त का कार्यालय
- पोषाहार, बाल कल्याण, समुदाय/ 2. प्रो. शोभा ए. उडिपी, विभाग प्रमुख,
महिला गतिशीलता, स्कूल शिक्षा, खाद्य एवं पोषण इकाई, खाद्य विभाग,
बाल स्वास्थ्य, स्कूल मध्याह्न विज्ञान एवं पोषण
- भोजन के क्षेत्र में योगदान/ 3. डॉ. उमा अय्यर, रीडर, खाद्य और
उपलब्धियां 4. अक्षय पात्र के प्रतिनिधि (श्री चंचलपति दास, उपाध्यक्ष)

पांच राज्यों के प्रतिनिधि (प्रत्येक क्षेत्र से एक)

1. कर्नाटक
2. झारखंड
3. जम्मू और कश्मीर
4. मेघालय
5. गुजरात

- सेवा के विशिष्ट रिकार्ड के साथ 1. सुश्री परीबेका आत्महृदय,
दो प्राथमिक स्कूल अध्यापक प्रधानाध्यापिका, श्री रामकृष्ण शारदा
(जिसमें से कम से कम एक स्कूल, झरग्राम, पश्चिम बंगाल
महिला होगी) 2. श्रीमती डी. सुजाथा, माध्यमिक ग्रेड
शिक्षक मंडल परिषद् प्राथमिक स्कूल,
टीएमवी कन्द्रीगा, श्रीकलाहस्ती मंडल,
जिला-चित्तूर, आंध्र प्रदेश

- (ix) डॉ. नागेश सिंह, आर्थिक सलाहकार, स्कूल शिक्षा सदस्य
और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- (x) संयुक्त सचिव/अपर सचिव, स्कूल शिक्षा और सदस्य सचिव
साक्षरता विभाग में मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी

3. उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष तक अथवा उनके उत्तराधिकारियों का नामांकन होने तक, इनमें से जो भी बाद में हो, होगा। एनएसएमसी की बैठक प्रत्येक छः महीने में कम से कम एक बार होगी।

4. एनएसएमसी की सचिवालय सहायता स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो-1 के द्वारा प्रदान की जाएगी।

5. यह माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया गया।

गया प्रसाद, निदेशक (एमडीएम)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 04 मार्च 2013

सं. ए-53011/8/2010-स्था.--राष्ट्रपति, श्री किरपाल सिंह को दिनांक 29.10.2012 (अपराह्न) से अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में (वेतन बैंड-2) 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड वेतन 4,800/- रु. में नियुक्त करते हैं।

2. श्री किरपाल सिंह की नियुक्ति मंत्री महोदय के कार्यकाल के साथ सहकालिक आधार पर अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, तक के लिए है।

3. श्री किरपाल सिंह, सहायक निजी सचिव का वेतन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन जीएसआर 622(ई) की प्रथम अनुसूची के खंड-II भाग-क में दी गई शर्तों के अनुसार 18,150/- रु. (वेतन बैंड 13,350/- रु. + ग्रेड वेतन 4,800/- रु. में वेतन) वेतन निर्धारित किया जाता है।

के. डी. सिंह, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. ए-41-05/2009-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध/बेतार अनुश्रवण संगठन में कार्यरत निम्नलिखित अभियंताओं को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से 6,600/- रुपए ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड में नियमित आधार पर सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी अभियंता (बेतार मॉनीटरिंग संगठन) नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री अनिल कुमार वर्मा	02.04.2012
2.	श्री एच. एम. श्रीवास्तव	02.07.2012

निर्मला देव, अवर सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. पीएफ-5182/प्रशा.-II--राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आदेश सं. 12016/2/2012-एसएसएस दिनांक 07 फरवरी, 2013 के तहत 4,600/- रुपए ग्रेड वेतन के साथ 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-2 में अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) के सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II से सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-I (राजपत्रित) पद पर उनकी प्रोन्नति के परिणामस्वरूप, एसएसएस संवर्ग के सांख्यिकीय सहायक (सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II) श्री नवल किशोर दूबे को सांख्यिकीय अधिकारी के रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 07 फरवरी, 2013 से अगले आदेश जारी होने तक वेतन बैंड-2 में (9,300--34,800/- रु. + 4,600/- रु. वेतन ग्रेड) इस विभाग में तदर्थ आधार पर सांख्यिकीय अधिकारी (सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-I) नियुक्त करते हैं।

निर्मला देव, अवर सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. पीएफ/104/एनआईसी/2013-प्रशा.-I--डॉ. सुनील कुमार जैन, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड सं. 104), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 28 फरवरी, 2013 को अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. एन. कालिया, उप निदेशक

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2013

सं. ई(जी.पी.)2011/3/3--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित 129 ग्रुप-बी अधिकारियों जो कि निम्न दर्शाये गये रेलों से हैं, को 11.12.2012 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस.ई.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

2010-2011 के लिए पैनेल

क्र. सं.	नाम	रेलवे
1	2	3
1.	मनोहर लाल मीणा (अ.ज.जा)	उ.प.रे.
2.	राजेश कुमार वर्मा	उ.रे.
3.	राजीव दिवेदी	उ.प.रे.
4.	अशोक कुमार शारदा	उ.प.रे.

1	2	3
5.	जगदीश प्रसाद यादव	उ.रे.
6.	ओ. पी. सिंह	म.रे.
7.	सलीम खान	म.रे.
8.	वी. श्रीनिवासन	द.रे.
9.	ए. के. कन्नौजिया (अ.जा.)	उ.प.रे.
10.	प्रकाश जोशी	प.रे.
11.	के. जे. गोलेगांवकर	म.रे.
12.	डी. के. गुप्ता	म.रे.
13.	एम. के. अग्रवाल	द.पू.म.रे.
14.	एस. के. चतुर्वेदी	अ.अ.मा.सं.
15.	रंजना धवन	अ.अ.मा.सं.
16.	कमलेश चक्रवर्ती	पू.रे.
17.	सुब्रता रंजन दास	पू.रे.
18.	रतिकान्ता दास	पू.रे.
19.	बुद्धदेव कुण्डु	पू.रे.
20.	अनिल कुमार सिंह	पू.म.रे.
21.	राम विजय राय	पू.म.रे.
22.	विलिम जीत सिंह	उ.रे.
23.	पी. के. पाणिग्रही	पूर्व तट रे.
24.	जेड. अजीसुद्दीन	स.डि.का.
25.	एस. अपल्ला राजू	द.म.रे.
26.	जी. वी. सुधाकर	द.म.रे.
27.	आर. के. खरे	द.म.रे.
28.	जी. ज्ञानाशेखरन	द.म.रे.
29.	टी. ए. एल. एन. प्रसाद	द.म.रे.
30.	बी. वी. वी. नागेन्द्र प्रसाद	द.म.रे.
31.	ए. बालाजी राव	द.म.रे.
32.	ए. के. गुप्ता	द.म.रे.
33.	जे. एस. वी. रामाराव	द.म.रे.
34.	एम. निरंजन कुमार	द.म.रे.
35.	एस. कोंडप्पा नायडू	द.म.रे.
36.	वी. शंकरानारायणन	द.रे.
37.	वी. त्यागराजन	द.रे.

			2011-2012 के लिए पैनल		
1	2	3	1	2	3
38.	सत्या प्रगन्ना एम. एच.	द.प.रे.	1.	एल. एन. शर्मा	उ.प.रे.
39.	जे. सैम्सन विजयकुमार	द.रे.	2.	एच. के. धवन	अ.अ.मा.सं.
40.	बी. एन. झा	पूर्वो.सी.रे.	3.	एन. बालासुब्रमनीयन	द.रे.
41.	एच. सी. पाण्डे	अ.अ.मा.सं.	4.	के. आर. प्रकाश	द.रे.
42.	भगवान मलिक	उ.रे.	5.	के. आर. डे	पूर्वो.सी.रे.
43.	मदन लाल चावला	उ.रे.	6.	अरूण कुमार मित्तल	उ.रे.
44.	विजय कुमार	उ.रे.	7.	विनोद कुमार तलवार	उ.रे.
45.	नीरज दुबे	प.म.रे.	8.	सुधीर कुमार	पू.म.रे.
46.	आर. के. पाण्डे	म.रे.	9.	बी. के. पालीवाल	प.म.रे.
47.	ए. वी. कुलकर्णी	म.रे.	10.	प्रदीप कुमार पालीवाल	उ.म.रे.
48.	डी. डी. लोलाजे	म.रे.	11.	पी. के. सिंह	पूर्वो.सी.रे.
49.	डी. के. तिवारी	उ.म.रे.	12.	जय प्रकाश (अ.जा.)	पूर्वो.सी.रे.
50.	दीप कुमार शर्मा	उ.रे.	13.	एस. सेनगुप्ता	पूर्वो.सी.रे.
51.	आर. पी. चोहान	म.रे.	14.	ए. के. सरमा	पूर्वो.सी.रे.
52.	रश्मि कुमार	उ.रे.	15.	अजॉय मजुमदार	पूर्वो.सी.रे.
53.	नरेश सिंह चौहान	उ.रे.	16.	आलोक कुमार दास	पूर्वो.सी.रे.
54.	गिरीष चन्द्र (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	अ.अ.मा.सं.	17.	एस. के. गुहा	पूर्वो.सी.रे.
55.	रविन्द्रनाथ दास (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	द.रे.	18.	एस. जॉर्ज	पूर्वो.सी.रे.
56.	संतोष नागले (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	द.पू.म.रे.	19.	ए. एन. गुप्ता	अ.अ.मा.सं.
57.	यू. सी. नायक (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	पूर्व तट रे.	20.	रितु राज	अ.अ.मा.सं.
58.	जे. अची बाबू (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	पूर्व तट रे.	21.	के. सी. मिश्रा	पू.रे.
59.	पी. सी. दास (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	पूर्वो.सी.रे.	22.	अनिमेश साहा	पू.रे.
60.	जी. सिन्हा राय (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	पूर्वो.सी.रे.	23.	डी. कोनार	पू.रे.
61.	डी. दास (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	पूर्वो.सी.रे.	24.	एस. बिस्वास	पू.रे.
62.	एस. बर्मा (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	पूर्वो.सी.रे.	25.	डी. बख्शी	पू.रे.
63.	सी. हेम्ब्रम (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	पूर्व तट रे.	26.	डी. एस. श्रीवास्तव	पू.म.रे.
64.	बी. आर. मिश्रा	पूर्वो.सी.रे.	27.	एस. के. ओझा	पू.म.रे.
			28.	एल. के. नन्दी	पू.रे.
			29.	पी. गनेश बाबू	द.म.रे.
			30.	बी. सरकार	पू.रे.
			31.	जी. एस. तिवारी	पू.म.रे.
			32.	ए. के. सिंह	पूर्वो.रे.
			33.	अनिल सप्रे	पूर्वो.रे.

1	2	3
34.	सुभाष चन्द वर्मा	उ.प.रे.
35.	संजय चौरसिया	म.रे.
36.	बी. एस. राजन (अ.जा.)	द.रे.
37.	पी. सुसीन्द्रन	द.रे.
38.	वी. राजेन्द्रन	द.रे.
39.	एम. आर. मोहन	द.रे.
40.	टी. रवि	द.रे.
41.	एम. गुरूराजन	द.रे.
42.	एस. अंबालगन	द.रे.
43.	चाको जार्ज	द.रे.
44.	एस. मेयप्पन	द.रे.
45.	ए. सेनगुट्टुवेल	द.रे.
46.	ए. मुनियासामी	द.रे.
47.	सुभाष बासु	द.पू.रे.
48.	एस. सी. कोले	द.पू.रे.
49.	ए. के. भौमिक	द.पू.रे.
50.	डी. सत्यानारायणा	द.पू.म.रे.
51.	ए. वी. रामारायलू	पूर्व तट रे.
52.	श्रीनिवास साहू	पूर्व तट रे.
53.	एम. एन. एस. रमेश	पूर्व तट रे.
54.	एम. आर. पाण्डा	पूर्व तट रे.
55.	डी. सुनील पॉल	द.पू.रे.
56.	एस. एच. मालभागे (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	म.रे.
57.	ए. के. दिवाकर (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	प.रे.
58.	प्राग प्रसाद (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	उ.रे.
59.	रामदास कोरी (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	प.रे.
60.	टी. संजीवैया (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	द.म.रे.
61.	बी. विजया कुमार (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	द.म.रे.
62.	एम. एल. आर्या (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	उ.रे.

1	2	3
63.	पी. शिवराम (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	द.म.रे.
64.	रामाकृष्णन आर. (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	द.रे.
65.	मनीष आई. लावकर (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	द.पू.म.रे.

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 22 फरवरी 2013

सं. ईआरबी-1/2011/2/44--श्री अंजुम परवेज़, एसजी/आईआरएसई, विशेष कार्य अधिकारी (प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग), रेलवे बोर्ड को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उनकी पदोन्नति होने पर दिनांक 31.12.2012 के अपराह्न से कार्यपालक निदेशक (प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है।

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2012/2/16--राष्ट्रपति जी, श्री बी. एन. महापात्रा, एसएजी/आईआरएस, कार्यकारी निदेशक, वित्त (व्यय)-1, रेलवे बोर्ड को 28.01.2013 के अपराह्न से एच ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर सलाहकार, वित्त (व्यय), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2012/2/25--राष्ट्रपति जी, श्री पी. वी. वैद्यलिंगम, एसएजी/आईआरएस, कार्यकारी निदेशक, लेखा, रेलवे बोर्ड को 28.01.2013 के अपराह्न से एच ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर सलाहकार (लेखा), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री भगत सिंह, अनुभाग अधिकारी, रेलवे बोर्ड अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2013 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 6 मार्च 2013

सं. ई (जी.पी.) 2010/3/14--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के निम्नलिखित 2 ग्रुप-बी अधिकारियों को दिनांक 01.01.2013 से ग्रुप-ए के वरिष्ठ वेतनमान में ज्येष्ठ प्रबन्धक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2011-12 के लिए पैनल

1. श्री शंकर रॉय
(दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत)
2. श्री एस. कन्नन (अ. जा.)
(पूर्व रेलवे में कार्यरत)

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 फरवरी 2013

सं. ए-22012/1/2011-स्था.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन श्रेणी के 1995 चयन सूची के अधिकारी श्री सुनील मिश्रा (सी.एस. एल.सं. 1717) को वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पे बैंड-4 {रु. 37,400--67,000/- + रु. 10,000/- (ग्रेड पे)} के वेतनमान में दिनांक 20.02.2013 (पूर्वाह) से पोत परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव (इन-सिटु) के पद पर में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

धीरेन्द्र कुमार पूर्वे, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. 09/2012, फा. सं. 12/05/2012-प्रशा.-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्रीमती अल्पना दास गुप्ता, प्रधान स्टॉफ अधिकारी, विद्युत मंत्रालय दिनांक 28.02.2013 के अपराह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

दिनांक 6 मार्च 2013

सं. 4/2013-मि.सं.ए-35018/1/2010-प्रशा.एक I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री कौशल किशोर अग्रवाल, सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार की सेवा से 28 फरवरी, 2013 के अपराह से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2013

सं. 11/2013 फा. सं. 2/4/98-प्रशा. पार्ट (खण्ड-I)--राष्ट्रपति, सुश्री उर्विला खाती, आईआरपीएस (1986) को जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के नए सृजित दर पर पीबी-4, 37,400--67,000/- रु. + 10,000/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में दिनांक 01.03.2013 के पूर्वाह से पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। अधिकारी को उक्त दिनांक से संयुक्त सचिव (पीपी) के रूप में नामित किया जाता है।

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

सं. 12/2013 फाइल संख्या 11/6/2012--श्री नागेन्द्र कुमार-II, अनुभाग अधिकारी एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (जल गुणवत्ता प्रकोष्ठ) के रोटेशनल स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत दिनांक 31.01.2013 को स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप श्री बी. एल. मीणा, अवर सचिव जो जल विज्ञान परियोजना को छोड़कर ब्रह्मपुत्र एवं बराक संकंध के मामलों के विषय में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं, को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के शर्तानुसार जल गुणवत्ता प्रकोष्ठ के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-12025/1/2009-आईआईएस(खण्ड.III/152--सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के परिणाम (रिजर्व सूची) के आधार पर, राष्ट्रपति, निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीखों से वेतन बैंड 15,600--39,100/- रु. ग्रेड वेतन 5,400/- रु. में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	रैंक नं.	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री अमित कुमार	938	14.01.2013 (पूर्वाह)
2.	सुश्री स्वेता सिंह	1015	21.01.2013 (पूर्वाह)
3.	श्री निरगुडे योगेश बब्बनराव	1028	24.12.2012 (पूर्वाह)
4.	सुश्री एम. लीला मीनात्वी	1037	05.12.2012 (पूर्वाह)

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर होंगे।

3. उन्हें आगामी आदेशों तक निम्नलिखित मीडिया एककों में सहायक निदेशक के रूप में तैनात किया जाता है :-

1. श्री अमित कुमार पीआईबी, नई दिल्ली
2. सुश्री स्वेता सिंह दूरदर्शन, न्यूज नई दिल्ली

3. श्री निरगुडे योगेश पीआईबी, नई दिल्ली
बब्बनराव

4. सुश्री एम. लीला मीनात्वी प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली

नीरज कुमार, अवर सचिव

अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

सं. ए-12025/1/2009-आईआईएस(खण्ड.III/117/152)--इस मंत्रालय की दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित श्री नदीम तुफैल टी के कार्यभार ग्रहण की तिथि को 06 दिसम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) पढ़ा जाए।

नीरज कुमार, अवर सचिव

सं. 90/2013 (फा. सं. 6/2/2007-प्रशासन.II)--राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार श्री चिररावुरी विश्वनाथ, भा.प्र.से. (आंध्र प्रदेश : 81) को दिनांक 18.02.2013 (पूर्वाह्न) अर्थात् अपर सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 फरवरी 2013

सं. 83/2013 (फा. सं. ए-22012/6/2012-प्रशासन.II)--राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) श्री पी. एल. वर्मा की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.01.2013 के आदेश सं. 4/2/2013-सीएस.I(डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर ग्रेड (उप सचिव) में तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 01.02.2013 (पूर्वाह्न) से 7,600/- रु. के ग्रेड पे के साथ पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. में इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर ग्रेड- अधिकारी (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं। उन्हें उसी तारीख अर्थात् 01.02.2013 (पूर्वाह्न) से उप सचिव के रूप में मुख्य सचिवालय के कर्मचारी संख्या बल में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उनकी तदर्थ पदोन्नति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त आदेश में दी गई शर्तों के अधीन है।

2. उप सचिव के पद पर श्री पी. एल. वर्मा की पदोन्नति के परिणामस्वरूप, उन्हें दिनांक 19.02.2013 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक मुख्य सचिवालय में उप सचिव [बी(डी) एवं बी (वित्त)] के रूप में कार्यभार सौंपा जाता है।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. 89/2013 (फा. सं. 6/2/2007-प्रशासन.II)--राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, भा.प्र.से. (मध्य प्रदेश : 82) को दिनांक 18.02.2013 (पूर्वाह्न) अर्थात्

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय)

मुम्बई-400022,, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. 39/3/2009-स्था.--सूचना का अधिकार (वर्ष 2005 सं. 22) की धारा 5(1) के साथ पठित धारा 2(सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभागाध्यक्ष, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय(डीजीफासली), श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्री एन. के. रुस्तगी, निदेशक (एस.टी./पी.), केन्द्रीय श्रम संस्थान को "जन अधिकारी" अर्थात् डीजीफासली के संबंध में जन सूचना अधिकारी पदनामित किया जाता है। श्री एन. के. रुस्तगी की अनुपस्थिति में श्री आर. एन. मीणा, उप निदेशक(एस.टी./पी.), केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुम्बई केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19(1) के प्रयोजन से श्री एस. बी. माथुर, महानिदेशक, डीजीफासली, मुंबई, वरिष्ठ अधिकारी होंगे।

एस. एन. बोरकर, निदेशक (सुरक्षा) एवं कार्यालयाध्यक्ष
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2013

सं. ए.32022/01/2012-प्रशा.I--राष्ट्रपति, श्रम और रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी, श्री बी. एम. पटनायक को श्रम और रोजगार मंत्रालय में 21फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से डेस्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. ठाकुर, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 26th February 2013

No. RS.3/8(1)/2013/15-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Security Officer in the Rajya Sabha Secretariat as Assistant Director (Security) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 28th January, 2013 and until further orders :—

- (i) Shri Manish Mehta
- (ii) Shri Rajister Tyagi
- (iii) Shri Sanjay Kumar Pandey
- (iv) Shri Devender Kumar
- (v) Shri Suresh Kumar
- (vi) Shri Deepak Singh Parmar
- (vii) Smt. Luxmi Bansal
- (viii) Shri Urujul Hasan
- (ix) Shri P. K. Gautam
- (x) Shri Amol Prabhakar Deshpande
- (xi) Shri Ajay Kumar
- (xii) Shri Surendra Shankar Singh

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 27th February 2013

No. RS.3/1(1)/2013/16-Perl.—Shri Vimal Kumar, who was earlier appointed to officiate as Director in the Rajya Sabha Secretariat on ad-hoc basis vide Notification No. RS. 3/1(1)/2012/63-Perl. dated 10th July 2012, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 26th February 2013 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 4th March 2013

No. RS.20/1/2013/17-Perl.—On attaining the age of superannuation, Dr. Jayantimala Devi, Joint Director (Interpretation), retired from service with effect from the afternoon of 28th February, 2013.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

No. RS.3/8(1)/2013/18-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons

in the grade of Deputy Director (Security) in the Rajya Sabha Secretariat as Joint Director (Security) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 8,000/- plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 03rd March, 2013 and until further orders :—

- (i) Shri Sunil Shokeen
- (ii) Shri Dharam Bir Sharma
- (iii) Shri Shajee Augustin

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 5th March 2013

No. A-35013/1/2012-Ad.—The President is pleased to appoint Shri Thomas Chacko, Area Organiser, FHQ, SSB as Director (DIG Scale) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/- (PB-4) in the National Security Council Secretariat (NSCS), on deputation basis for a period of 5 years or until further orders whichever is earlier, with effect from the forenoon of 1st March, 2013.

S. KAMESHWAR, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 1st January 2013

No. A-32013/2/2011-Admn-IV—The President is pleased to appoint Shri Kamal Nain Prasad, Assistant (CSS), Planning Commission to officiate as Section Officer (CSS) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in this Commission, on ad hoc basis with effect from 31.12.2012 (FN) upto 31.12.2012 or till regular Section Officer becomes available, whichever is earlier.

2. The ad hoc appointment will not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in SL of Section Officer for regular appointment or to claim seniority in Section Officer grade of CSS.

VARINA NATHANI, Under Secy.

The 28th February 2013

No. A-20012/58/77-Admn-IV—On attaining the age of superannuation Shri Kishan Lal, Section Officer, Planning Commission retires from Government Service with effect from 28.02.2013 (AN).

VARINA NATHANI, Under Secy.

New Delhi, the 28th February 2013

No. F.6(1974)/2006-Admn-I—On attaining the age of superannuation Shri S. Lakshmanan, IES, Director, Planning

Commission retires from Government Service with effect from 28.02.2013 (AN).

G. RAJEEV, Under Secy.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 1st March 2013

No. A-19012/65/13-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(SO/HQ)/11-UIDAI dated 13.02.13 and Ministry of Home Affairs (Directorate of Coordination) office order No. A-14011/1(F.A)/2010-Ad.II dated 22.02.13, Shri Sundar Singh Bisht has assumed the charge of Section Officer in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f. 28.02.2013 (FN) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR, Dy. Dir. (Estt.)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 21st February 2013

No. A-12034/3/2012-Admn.IV (LA) Part-II—The President is pleased to appoint Shri S. N. Pathak as Additional Private Secretary in the personal section of the Hon'ble Minister of Law & Justice (Dr. Ashwani Kumar) w.e.f. 27.11.2012 (FN) in the Pay Band PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/-.

2. The appointment of Shri S. N. Pathak is at the pleasure of and co-terminus with the tenure of Dr. Ashwani Kumar as Minister of Law & Justice.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

The 28th February 2013

No. A-38012/08/2012-Admn.IV (LA)—On attaining the age of superannuation, Dr. Tek Chand Kaushik, Senior Government Advocate and In-charge, Branch Secretariat, Mumbai retires from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2013.

G. D. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 5th March 2013

No. 20/G/3151-Ad.I—The President announces the death of Smt. Kamlesh Bhardwaj, Section Officer of Central Secretariat Service Cadre of Ministry of Home Affairs, New Delhi on 03.02.2013.

SUROJIT GHOSH, Under Secy.

New Delhi, the 5th March 2013

No. I-14013/108/2012-IPS.I—Consequent upon inclusion of the name of Shri Rajiv Ranjan at Sl. No. 13A below the name of Shri Braham Singh (S. No. 13) and above the name of Shri Brija Kishore Singh (S. No. 14) in the Select List of 2010 and the approval of the Union Public Service Commission on 28.02.2013 to the recommendations of the Review Selection Committee held on 31.12.2012 to review the Select List of 2010 to consider the name of Shri Rajiv Ranjan for appointment to the Indian Police Service in pursuance of order dated 04.10.2012 of the Hon'ble CAT, Principal Bench in O. A. No. 2578/2012 filed by Shri Rajiv Ranjan and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with 2nd proviso to sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Ranjan (Date of Birth : 01.02.1962), a member of UT Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the AGMU Cadre under sub-rule (1) of the Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

The 7th March 2013

No. I-14011/03/2012-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the Union Public Service Commission has on 04.03.2013, approved the year-wise Select Lists of the years 2010 and 2011 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 26.10.2012, containing the names of the following State Police Service Officers of Manipur, towards filling up 9 and 4 total 13 substantive vacancies in the Manipur Segment of Joint Manipur_Tripura Cadre of Indian Police Service:—

Select List 2010

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	2	3
	(Shri/Smt.)	
1.	Ms. R. K. Tutusana Devi	14.12.1963
2.	John Shelshi Shelhan	01.03.1956
3.	Th. Brojen Singh	01.11.1961
4.	Th. Radheshyam Singh	13.08.1964
5.	Smt. Mamata Wahengbam	01.03.1965
6.	Th. Basantakumar Singh	01.01.1965

1	2	3
7.	Smt. Achin Haokip	11.04.1964
8.	Faumei Gonglin	01.01.1965
9.	Tonsing Kosing Anal	01.01.1959

Select List 2011

1.	Md. Firoz Khan	01.03.1957
2.	N. Manimohan Singh	27.05.1958
3.	K. Chaoba Lokho Mao	07.03.1963
4.	S. Amirlal Sharma	01.03.1962

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/03/2012-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of the Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Manipur Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Manipur Segment of Joint Manipur-Tripura Cadre under Sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List 2010

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(Smt./Shri)	
1.	Ms. R. K. Tutusana Devi	14.12.1963
2.	John Shelshi Shelhan	01.03.1956
3.	Th. Brojen Singh	01.11.1961
4.	Th. Radheshyam Singh	13.08.1964
5.	Smt. Mamata Wahengbam	01.03.1965
6.	Th. Basantakumar Singh	01.01.1965
7.	Smt. Achin Haokip	11.04.1964
8.	Faumei Gonglin	01.01.1965
9.	Tonsing Kosing Anal	01.01.1959

Select List 2011

	(Smt./Shri)	
1.	Md. Firoz Khan	01.03.1957
2.	N. Manimohan Singh	27.05.1958
3.	K. Chaoba Lokho Mao	07.03.1963
4.	S. Amirlal Sharma	01.03.1962

2. On account of order dated 06.05.2005 of the Hon'ble Gauhati High Court, Imphal Bench in Civil Misc. Application No. 556/2003, any promotion made on the basis of the seniority list dated 26.09.2003 shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 8982 of 2003 (Gauhati)/195 of 2004 (Imphal) filed by Shri S. Manaobi Singh & others Vs the State of Manipur & Others.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

DISASTER MANAGEMENT DIVISION

New Delhi, the 21st February 2013

No. 44-8/2009-NDM-II—In pursuance of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training Order No. 3/7/2013-EO(SM) dated 12.02.2013, the President is pleased to appoint Dr. Shyam S. Agarwal, IAS (RJ : 80) as Secretary, National Disaster Management Authority (NDMA) in the rank and pay of Additional Secretary under the Ministry of Home Affairs with effect from 15.02.2013 (FN).

ASHISH KUMAR PANDA, Under Secy. (DM-II)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 26th February 2013

No. A-32013/2/2013-Ad.I—Consequent upon his selection for appointment as Director under the Central Staffing Scheme vide EO Division's Order No. 6/17/2012-EO (MM.I) dated 9th January, 2013, the President is pleased to appoint Shri M. Devaraj, IAS (UP : 1996) as Director in Department of Personnel and Training in the Pay Band PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from forenoon of 25th February, 2013 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

JAYANTHI SRIRAM, Under Secy.

New Delhi, the 5th March 2013

No. 14015/12/2011-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service Officers of Kerala containing the following name prepared on 30th November 2012 under Regulation 5(5) and approved on 07.02.2013, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Kerala cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2009 :—

Select List of 2009 (Against vacancies arisen between 01.01.2009 to 31.12.2009)

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. P. Marykutty (ST)	18.06.1958
2.	Shri B. Mohanan (SC)	10.04.1955

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/24/2012-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of the State Civil Service of Kerala to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2009, on probation until further orders and to allocate them to the Kerala Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2009 (Against vacancies arisen between 01.01.2009 to 31.12.2009)

Smt. P. Marykutty (ST)

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/12/2012-AIS (I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service Officers of Kerala containing the following name prepared on 21st December 2012 under Regulation 5 and approved on 12.02.2013, under

Regulation 7(1) towards filling up promotion quota vacancies in Kerala cadre of IAS under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2012 :—

Select List of 2012 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

Name	Date of Birth
Shri N. Padmakumar	20.12.1960

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/12/2012-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of the Non-State Civil Service of Kerala to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2012, on probation until further orders and to allocate him to the Kerala Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2012 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

Shri N. Padmakumar

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

New Delhi, the 4th March 2013

No. 24011/03/2008-Estt (B)—Consequent upon attaining age of 62 years, Shri N. K. Raghupathy has demitted the office of Chairman, Staff Selection Commission with effect from the afternoon of 02nd March, 2013.

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 27th February 2013

No. DIII/460/CF-53/2012—The President is pleased to recognize the appointment of Mr. Liu Youfa as Consul General of the People's Republic of China in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Liu Youfa comprises the States of Maharashtra and Karnataka with the seat in Mumbai.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 19th February 2013

No. 11 (F. No. 50050/127/2012-Ad.I)—The President is pleased to appoint the following regular Assistants of the Finance Cadre of the Central Secretariat Services (CSS) as Section Officer of the CSS on ad-hoc basis in the Department of Revenue w.e.f. the dates shown against the name of each officer and until further orders.

Sl. No.	Name	Date of joining as Section Officer (Ad-hoc)
1.	Shri R. K. Meena	04.02.2013 (FN)
2.	Shri Sri Ram Parashar	31.01.2013 (FN)

2. The ad-hoc promotion of these officers would initially be upto 30.06.2013 or until further orders. The ad-hoc appointments of above Section Officers will be subject to the following terms and conditions:—

- (i) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;
- (ii) Ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointee not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they shall be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective Cadre Units allotted to them by the DoP&T.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 26th February 2013

No. 12 (F. No. A-19012/3/2013-Ad.I)—The President is pleased to appoint Smt. Prakriti Srivastava, IFS (KL : 1990) as Director in the Department of Revenue w.e.f. 18.02.2013 (FN) for a period upto 08.05.2016 (combined tenure of

seven years in both stints i.e. non-CSS and CSS put together) or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 1st March 2013

No. 13 (F. No. A-38014/15/2012-Ad.I)—Shri Rati Ram Yadav, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 28.02.2013 (AN) on attaining the age of superannuation.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

No. 14 (F. No. A-38014/14/2012-Ad.I)—Shri Adarsh Kumar, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 28.02.2013 (AN) on attaining the age of superannuation.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 4th March 2013

No. 15 (F. No. A-19013/3/2013-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Himani Bhayana, (IRS : C&CE) as Under Secretary in the Central Board of Excise Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 28.02.2013 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 8th March 2013

No. A-35011/5/2011-Ad.ED (Vol-II)—The President is pleased to appoint Smt. N. Ananthie, Superintendent, Central Excise, Chennai-II, as Deputy Director of Enforcement at Zonal Office, Chennai, on deputation basis in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- in the Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of 3 years w.e.f. 16.01.2013 (AN) upto 16.01.2016 (AN), or until further orders, whichever is earlier.

R. N. SINGH, Under Secy.

No. A-35011/5/2011-Ad.ED (Vol-II)—The President is pleased to appoint Shri Ram Badan Singh, DSP, U. P. Police as Deputy Director of Enforcement at Delhi, on deputation basis in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- in the Grade Pay

of Rs. 6,600/- for a period of 3 years w.e.f. 23.01.2013 (FN) upto 22.01.2016 (AN), or until further orders, whichever is earlier.

R. N. SINGH, Under Secy.

No. A-35011/5/2011-Ad.ED (Vol-II)—The President is pleased to appoint Shri H. S. Jain, Superintendent, (Central Excise, Thane-II) Mumbai Zone-I as Deputy Director of Enforcement at Ahmedabad, on deputation basis in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- in the Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of 3 years w.e.f. 04.02.2013 (FN) upto 03.02.2016 (AN), or until further orders, whichever is earlier.

R. N. SINGH, Under Secy.

No. A-35011/5/2011-Ad.ED (Vol-II)—The President is pleased to appoint Shri H. P. Sudham Das, Superintendent, Central Excise, Bangalore-I as Deputy Director of Enforcement at Bangalore, on deputation basis in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- in the Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of 3 years w.e.f. 15.01.2013 (FN) upto 14.01.2016 (AN), or until further orders, whichever is earlier.

R. N. SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 26th February 2013

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No. 10/2013 (F. No. C-18011/47/2003-Ad.II)—The President is pleased to appoint Shri Shiv Swarup Sharma, an officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) Group 'A' to the grade of Joint Commissioner of Customs & Central Excise (Junior Administrative Grade) w.e.f. 01.04.1990 on regular basis against the panel year 1990-91 in supersession of decision communicated vide Notification No. 25/2003 dated 17.10.2003 for F. No. A-32012/14/2002-Ad.II (Vol.II) in respect of Shri S. S. Sharma (S. No. 3 of year 1992-93). It has also been decided to place his name at Sl. No. 18A below Shri R. K. Kapoor-II (Sl. No. 18) and above Shri Ram Tirath (Sl. No. 19) in the panel year 1990-91 in para no. 4 of Notification No. 3/2002 dated 3rd May, 2002 issued vide F. No. 32012/3/200-Ad.II (Vol.II).

JOSEPH ANTONY, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 21st February 2013

No. A-19011/336/2013-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Shankar Chandra Das (CSL NO. 5306 of CSS) Under Secretary of the Ministry of Minority Affairs, to the Selection Grade (Deputy Secretary) purely on ad-hoc basis

in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 19th February, 2013 initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will be subject to the following conditions:—

- The ad-hoc appointment is subject to the final outcome of the pending Writ Petition No. 4097/2011 (Arun Gaur Vs. Garima Singh & Ors), W. P. No. 4616/2011 (V. S. Pandey & Ors Vs. Garima Singh & Ors), W. P. No. 7619/2011 (UPSC Vs. Garima Singh & Ors), W. P. No. 2176/2012 (Union of India Vs. Garima Singh & Ors) and other connected Writ Petitions Nos. W. P. (C) 2523/2012 (Union of India Vs. Anant Kishore Saran), W. P. (C) 2524/2012 (Union of India Vs. Shersha and Anr), W. P. (C) 2525/2012 (Union of India Vs. Syed Eram Rizvi and Anr), W. P. (C) 2526/2012 (Union of India Vs. Sandeep Kumar Gupta), W. P. (C) 2527/2012 (Union of India Vs. Soumya Chattopadhyay and Anr) in the High Court of Delhi and the SLP(C) No. 9653/2012 (Syed Ekram Rizvi and Ors Vs. Union of India & Ors) in the Supreme Court and also any other order by any Competent court in any of the connected matters, apart from the above.
- The appointment is subject to Vigilance clearance in terms of DoPT's O. M. No. 22011/4/91-Estt.(A) dated 14.09.92 and O. M. No. 22012/1/99-Estt. (D) dated 25.10.2004.
- The ad-hoc appointments shall not bestow on the incumbents any claim for regular appointment to the grade.
- The service rendered on ad-hoc basis in the grade would not count for the purpose of seniority in the grade or for promotion to the next higher grade.
- The ad-hoc appointment shall not confer any right on the incumbents to continue in the grade indefinitely and may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

VIJAY MALHOTRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 28th February 2013

No. PFG(2318)/Pension-Ad.I—Shri Udayan Chatterjee, Deputy Secretary of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 28th February, 2013.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110011, the 13th February 2013

No. PFG(761)/2011-Admn-II—Consequent upon his transfer vide Office Order A-22011/1/2013-Ad-II dated 21.01.2013, Shri Gopal Singh a Junior Time Scale Officer of the Indian Corporate Law Service has assumed the charge of the post of Assistant Director in Headquarters w.e.f. 04.02.2013 (AN).

R. K. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 6th March 2013

No. PFG(1047)/2013-Ad.I—Consequent on his transfer from Ministry of Water Resources to Ministry of Corporate Affairs vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/8/2012-CS-I (U) dated 18.01.2013, Shri Anand Hari Agarwal an officer of CSS (CSL No. 5629) has assumed the charge of the post of Under Secretary in the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. the forenoon of 01st March, 2013.

KSHITISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 28th February 2013

No. 01/2013 (F. No. 6/2371/2005/PEN/HRD-I)—On attaining the age of superannuation Shri Mahender Singh, FTDO (CSS) in this Office stands retired from Government Service with effect from 28.02.2013 (AN).

G. A. REDDY, Dy. Director General
of Foreign Trade

No. 02/2013 (F. No. 6/2590/2011/PEN/HRD-I)—On attaining the age of superannuation Smt. Santosh Madan, PS (CSSS) in this Office stands retired from Government Service with effect from 28.02.2013 (AN).

G. A. REDDY, Dy. Director General
of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 27th February 2013

No. A-12022/01/2013-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Umesh Kumar Tiwari, Director of the Central

Secretariat Service (CSS) in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry with effect from 01.02.2013 (FN), consequent on his transfer from the Ministry of Health and Family Welfare under Rotation Policy vide DoPT's Order No. 4/2/2013-CS.I(D) dated 29.01.2013.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 28th February 2013

No. A-12023/8/2012-E.I.—The President is pleased to appoint Shri M. Annadurai (IIS : 1995) as Private Secretary to the Minister of State (Commerce & Industry) (Dr. S. Jagathrakshakan) on lateral shift basis in the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry in the pay structure Pay Band PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 06.11.2012 and for the balance period of his tenure as Private Secretary upto 20.07.2014 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to be Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

L. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-19012/1385/2012-E.I.—The President is pleased to permit Smt. Valsamma Thomas, Section Officer (ad-hoc) of the Central Secretariat Service in Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, to retire Voluntarily from Government Service, with effect from the forenoon of 28th February, 2013.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 5th March 2013

CORRIGENDUM

No. A-12023/08/2012-E.I.—In the notification of even number dated 28.02.2012 regarding appointment of Shri M. Annadurai (IIS : 1995) as Private Secretary to the Minister of State (Commerce & Industry) (Dr. S. Jagathrakshakan) in the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry the 'pay structure of Pay Band PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 7,600/-' may be read as "pay structure Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) plus Grade Pay of Rs. 8,700/-."

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 28th February 2013

No. A-15012/1/2005-Admn./Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 21/3/2013/CS-I(D) dated 27.02.2013 for empanelment for holding the

post of Joint Secretary or equivalent under the Central Staffing Scheme, the President is pleased to appoint Shri Anil Kapoor (CSL No. 1518/1994), Director in the Ministry of Coal to the post of Joint Secretary (in-situ) in SAG Grade with effect from 27.02.2013 (FN) until further orders.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC
ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 6th March 2013

No. A-12023/2/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Jai Nath Prasad, Central Power Engineering Services (1998) as Deputy Secretary in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises w.e.f. forenoon of 01.03.2013 for a period of four years from the date of taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

JYOTI MATHUR, Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES

New Delhi, the 20th February 2013

No. A-18011/153/2013-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Madhav Lal, IAS (JK : 1977) as Secretary in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the forenoon of 20th February, 2013, until further orders.

L. HAOKIP, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 27th February 2013

No. A-22011/2/2007-E.II—The President is pleased to antedate the promotion of Dr. A. K. Singla to the post of Senior Marketing Officer from 01.02.2006 to 30.08.1999 in the Ministry of Food Processing Industries on regular basis in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with actual financial benefits from 01.02.2006.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 6th March 2013

No. A-12011/10/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Dinesh Kumar Dwivedi, Assistant Professor in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi as Professor on regular basis in the Indian Institute of Legal Metrology,

Ranchi in the Pay Band Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of the 19th February, 2013 and until further orders.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

No. A-12011/10/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Manish Prasad, Assistant Professor in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi as Professor on regular basis in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi in the Pay Band Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of the 19th February, 2013 and until further orders.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

The 8th March 2013

No. A-42011/1/2002-Estt. (Vol. III)—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's O. M. Nos. 12016/2/2012-SSS dated 07.02.2013 and 05.03.2013, Shri Surender Shah (Emp. Code 4331), Statistical Investigator Grade-II is promoted to the post of Statistical Investigator Grade-I (Gazetted) and posted in the Department of Consumer Affairs in the revised Pay Band PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. 06.03.2013 (FN) on ad-hoc basis and until further orders.

2. The ad-hoc promotion is made purely as a temporary measure and as a stop-gap arrangement and can be withdrawn/cancelled any time without assigning any reasons. The promotion will not bestow on Shri Surender Shah any claim for regular appointment and ad-hoc service will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion etc.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 27th February 2013

No. A-38014/18/2012-E.I.—Shri Nand Kumar Prasad, Principal Private Secretary of CSSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 28th February, 2013.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 9th January 2013

No. SM/01/10/2012—The President is pleased to appoint the following Research Officers in National Atlas and Thematic Mapping Organization (NATMO), Kolkata as

Deputy Director in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- in that organisation on promotion basis with effect from 03rd September, 2012 (FN).

- (i) Dr. Noor Mohammad
- (ii) Shri Jai Pal Singh

G. VIJAYARAGHAVAN, Dy. Secy.

The 10th January 2013

No. SM/01/21/2012—The President is pleased to appoint the following officers belonging to Research Assistant, Group 'B', Non-Gazetted in National Atlas and Thematic Mapping Organization (NATMO), Kolkata as Scientific Office, Group 'B', Gazetted in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,600/- in that organisation on promotion basis with effect from 27th November, 2012:—

- (i) Shri Bijoy Kumar Kundu
- (ii) Smt. Chitra Mukherjee
- (ii) Shri Tapan Kumar Mazumdar
- (iv) Smt. Kajal Banerjee
- (v) Smt. Chayanika Saha
- (vi) Smt. Sarbani Chakraborty
- (vii) Shri Vijay Singh
- (viii) Shri Supriya Raha
- (ix) Smt. Alpana Chatterjee

G. VIJAYARAGHAVAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 27th February 2013

No. A-12012/09/2005-P.II—The President is pleased to appoint Shri O. C. Bhardwaj (CSL No. 276), in the Ministry of Environment & Forests (who is at present on deputation in the office of the Resident Commissioner, Government of Jharkhand, New Delhi) to the post of Private Secretary on proforma promotion under Next Below Rule in his substantive cadre of CSSS for the Select List Year 2010 in the Pay Band-2, Band Pay Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 17.07.2012, in pursuance of the Department of Personnel and Training O. M. No. 4/2/2012-CS.II(A)(Pt.III) dated 30th November, 2012.

M. K. RAI, Under Secy.

The 28th February 2013

No. A-12012/3/2012-P.II(—)The President is pleased to appoint Shri Shashi Shekhar, IAS (TN : 81) as Additional Secretary in the scale of pay of Rs. 67,000—79,000/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 25th February, 2013, in pursuance of the approval

of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) conveyed vide Department of Personnel and Training communication No. 9/5/2013-EO(SM-I) dated 13.02.2013.

M. K. RAI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 28th February 2013

No. A-12025/13/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pawan Kumar to the post of Assistant Professor of Surgery in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 08.04.2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 5th March 2013

No. A-12025/95/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pratibha Rathore to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 29.08.2011 until further orders. Dr. Pratibha Rathore is posted as Medical Officer under Department of Posts. Dr. Pratibha Rathore shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A-12025/52/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Deepak Chand Gupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of 08.06.2010 until further orders. Dr. Deepak Chand Gupta is posted as Medical Officer under Department of Posts. He will be on probation period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

The 7th March 2013

No. A-12025/91/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Himanshu Gupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 12.08.2010 until further orders. Dr. Himanshu Gupta is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A-12025/221/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pankaj Keshavrao Patil to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 28.05.2007 until further orders. Dr. Pankaj Keshavrao Patil is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Nagpur. Dr. Pankaj Keshavrao Patil shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

The 8th March 2013

No. A-12025/14/2012-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anurag Goyal in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-, in a temporary capacity with effect from the forenoon of 15th May, 2012 until further orders. Dr. Anurag Goyal is posted as Medical Officer under CGHS, Jaipur. He will be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A-12025/111/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Subhajit Dhar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 04.09.2008 until further orders. Dr. Subhajit Dhar is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. He will be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A-12025/103/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Gupteshwar Prasad to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-, in a temporary capacity with effect from the forenoon of 09.11.2009 until further orders. Dr. Gupteshwar Prasad is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. He will be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

The 12th March 2013

No. A-12025/58/2012-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is

pleased to appoint Dr. Girdhari Lal Saini to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 31st March, 2012 until further orders. Dr. Girdhari Lal Saini is posted as Medical Officer in Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi. Dr. Girdhari Lal Saini shall be on probation for two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 1st February 2013

No. A-19011/01/2010-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/2/2013-EO(SM-I) dated 14th January, 2013, the President is pleased to appoint Shri Keshav N. Desiraju, IAS (UK : 78), presently Special Secretary in the Department of Health & Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare, as Secretary, Department of Health & Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare, with effect from the afternoon of 31st January, 2013 vice Sh. Prasanna Kumar Pradhan, IAS (WB : 77) on his retirement on 31.01.2013.

ANIL KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 1st March 2013

No. A-11013/05/2012-Estt.I(Pt)—The President is pleased to appoint Dr. Sandip Halder, a Selection Grade Officer of IOFHS and currently working as Pr. Medical Officer in the Ministry of Defence, as OSD at Director level in the personal establishment of Minister of State for Health & Family Welfare (Shri AHK Chowdhury) with effect from the forenoon of 27th February, 2013.

2. The appointment of Dr. Sandip Halder will be for a period of five years or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever occurs the earliest.

N. K. SWAMY, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYUSH

New Delhi, the 26th February 2013

No. A-32012/1/2006-Estt-I AYUSH—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rais-Ur-Rahman to the post of Adviser (Unani) in the Department of AYUSH in the pay scale of (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- plus Non-Practising Allowance for a period of 5 years w.e.f. 15.02.2013 (FN) or until further orders.

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 22nd February 2013

No. 38013/22/2012-Estt.I—Shri Prem Singh, Section Officer in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2013 on attaining the age of superannuation.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

No. 38013/21/2012-Estt.I—Shri Sukh Lal, Section Officer in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2013 on attaining the age of superannuation.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

New Delhi, the 11th February 2013

No. A-19016/1/11-E.I—The President is pleased to allow Mrs. Swarn Kanta Gulati, PPS Of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) of DAC and posted in this Directorate, to retire voluntarily from Government Service w.e.f. 01.02.2013 (FN) under the provisions laid in Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972.

R. K. SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer

The 13th February 2013

No. 19016/1/2013-E.I-ES—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Order No. 12016/2/2012-SSS dated 7th February, 2013, the President is pleased to appoint Shri John Roxburgh Peters, Statistical Investigator Grade-II of SSS in this Directorate as Statistical Investigator Grade-I (Group-B. Gazetted) on ad-hoc basis in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. 08.02.2013 (FN).

R. K. SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES

New Delhi, the 28th February 2013

No. 2-29/2012-Admn. V—The President is pleased to promote Shri K. P. Raghunath, Office Superintendent to the post of Senior Administrative Officer (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial) in Fishery Survey of India, Mumbai in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries with effect from the 5th February, 2013 (FN). He will be on probation for a period of two years.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

New Delhi, the 5th March 2013

No. A-19011/04/2013-Admn-I—In view of the recommendation of the Union Public Service Commission vide their letter No. F.1/86(35)/2010-R.I dated 30.05.2012, the President is pleased to appoint Dr. A. Arun Kumar as Livestock Officer (Group-A, Gazetted) in the scale of pay of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- + N. P. A. (as admissible) w.e.f. the forenoon of the 01st March, 2013 in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

D. BANERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi-110011, the 8th March 2013

No. A-12036/3/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S. R. Meena, ISS (1993), General Manager (Genl.), Food Corporation of India, New Delhi, in the personal staff of the Hon'ble Minister of State for Rural Development (Shri Lalchand Kataria) as Private Secretary on co-terminus basis with effect from the forenoon of 6th March, 2013.

ANNOP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION
& LITERACY)

New Delhi, the 16th January 2013

No. 5-21/2007-MDM 2-1—The National Programme of Mid-Day Meal in schools envisages the establishment of a National Steering-cum-Monitoring Committee (NSMC) to :—

- (i) Provide policy advice to Central and State Government.
- (ii) Guide Implementation agencies.
- (iii) Monitor Programme Implementation, assess its impact, and take corrective steps.

- (iv) Take action on reports of independent monitoring evaluation agencies.
- (v) Effect co-ordination and convergence among concerned departments, agencies (e.g. FCI), and schemes.
- (vi) Mobilize community support and promote public-private partnership for the programme.
- (viii) Identify voluntary agencies and other appropriate institutions to undertake training, capacity building, monitoring and evaluation and research connected with the programme at the national level.

2. The National Steering-cum-Monitoring Committee, constituted vide Notification No. F. 5-21/2007-EE.5 MDM dated 27th September, 2007 is hereby re-constituted with the following membership:—

- | | |
|--|-------------------|
| (i) Secretary, Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India. | Chairman |
| (ii) Financial Advisor, M/o HRD | Ex-officio Member |
| (iii) Principal Advisor/Advisor (Education), Planning Commission | Ex-officio Member |
| (iv) Director, NCERT | Ex-officio Member |
| (v) Vice Chancellor, NUEPA | Ex-officio Member |
| (vi) Managing Director, FC | Ex-officio Member |

The representatives (not below the rank of Joint Secretary) of the following Ministries/Departments (to be nominated by the Secretaries concerned) will also be the Ex-officio member:—

- (i) Ministry of Health & Family Welfare.
- (ii) Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution).
- (iii) Ministry of Women & Child Development.
- (iv) Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).
- (v) Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation.
- (vi) Ministry of Youth Affairs and Sports.
- (vii) Ministry of Tribal Affairs.
- (viii) Ministry of Social Justice & Empowerment.

The following thirteen members are nominated by Chairman with the approval of Hon'ble Minister of Human Resource Development for the period of two years or nominations of their successors, whichever is later:—

Two experts in the area of Nutrition

1. Director, National Institute of Nutrition (NIN), Hyderabad
2. Director, National Foundation of India (NFI), New Delhi

Four persons, of whom at least two shall be women, with significant contribution achievements in the area of Nutrition, Child Welfare, Community/Women's Mobilization, School Education, Child Health, School Mid Day Meal.

1. Shri Biraj Patnaik, Principal Advisor, O/o Supreme Court Commissioner
2. Prof. Shobha A. Udipi, Head of Department, Food and Nutrition Unit, Department of Food, Science and Nutrition
3. Dr. Uma Aiyar, Reader, Food and Nutrition Unit, The M. S. University of Baroda, Pratapgunj, Vadodara.
4. Representative of Akshaya Patra (Shri Chanchalapati Dasa Vice President).

Representatives of Five States (one from each region)

1. Karnataka
2. Jharkhand
3. Jammu & Kashmir
4. Meghalaya
5. Gujarat

Two Primary School Teachers with a Distinguished record of service (of whom at least one shall be a woman).

1. Ms. Paribraika Atmahridaya, Head Mistress, Shri Ram Krishna Sharada School, Jhargram, West Bengal
2. Smt. D. Sujatha, Secondary Grade Teacher Mandal Parishad Primary School, T. M. V. Kandriga, Srikalahasti Mandal, District-Chittoor, Andhra Pradesh.

(ix) Dr. Nagesh Singh, Economic Advisor, Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development Member

(x) Joint Secretary/Additional Secretary, in-charge of Mi-Day Meal Scheme in the Department of School Education & Literacy Member Secretary

3. The Terms of the above members will be of two years or nomination of their successors, whichever is later. The NSMC will meet at least once in every six months.

4. Secretariat support to NSMC will be provided by the Elementary Education Bureau-I of the Department of School Education & Literacy.

5. This issues with the approval of Hon'ble Minister of Human Resource Department, Government of India.

GAYA PRASAD, Director (MDM)

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 4th March 2013

No. A-53011/8/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Kirpal Singh as Asstt. Private Secretary to Minister of State for Minority Affairs in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 29.10.2012 (AN).

2. The appointment of Shri Kirpal Singh is on co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

3. The pay of Shri Kirpal Singh, Asstt. Private Secretary is fixed at Rs. 18,150/- (Pay in the Pay Band Rs. 13,350/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) in terms of Ministry of Finance, Department of Expenditure's Section-II Part-A of the First Schedule of Notification GSR 622 (E) dated 29th August, 2008.

K. D. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 19th February 2013

No. 41-05/2009-Admn.II—The President is pleased to appoint the following Engineers working in Wireless Planning & Coordination Wing/Wireless Monitoring Organization, Department of Telecommunications as Assistant Wireless Adviser/Engineer-in-Charge (Wireless Monitoring Organization) in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/-

with Grade Pay of Rs. 6,600/- on regular basis w.e.f. the date mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri Anil Kumar Verma	02.04.2012
2.	Shri H. M. Srivastava	02.07.2012

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 26th February 2013

No. PF-5182/Admn.II—Consequent upon his promotion from the post of Statistical Investigator Grade-II to Statistical Investigator Grade-I (Gazetted) of the Subordinate Statistical Service (SSS) in PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- on ad-hoc basis until further orders vide Order No. 12016/2/2012-SSS dated 7th February 2013 of Ministry of Statistics and Programme Implementation, the President is pleased to appoint Shri Naval Kishore Dubey, Statistical Assistant (Statistical Investigator Grade-II) of SSS cadre as Statistical Officer (Statistical Investigator Grade-I) in this Department on ad-hoc basis, in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/-) with effect from his date of joining as Statistical Officer i.e. 7th February 2013 until further orders.

NIRMALA DEV, Under Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 28th February 2013

No. PF/104/NIC/2013/Adm-I—Dr. Sunil Kumar Jain, Scientist "F" (Emp. Code : 104), National Informatics Centre,

New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2013 and he stands relieved of his duties from the same day.

G. N. KALIA, Dy. Director

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 20th February 2013

No. E(GP)2011/3/3—The President is pleased to appoint the undermentioned 129 Group 'B' officers of Civil Engineering Department of Indian Railways belonging to the Railways as mentioned against each, to group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 11.12.2012.

PANEL FOR 2010-2011

Sr. No.	Name	Railway
1	2	3
1.	Manohar Lal Meena (ST)	NWR
2.	Rajesh Kumar Verma	NR
3.	Rajeev Dwivedi	NWR
4.	Ashok Kumar Sharda	NWR
5.	Jagdish Prasad Yadav	NR
6.	O. P. Singh	CR
7.	Salim Khan	CR
8.	V. Srinivasan	SR
9.	A. K. Kanojia (SC)	NWR
10.	Prakash Joshi	WR
11.	K. J. Golegaonkar	CR
12.	D. K. Gupta	CR
13.	M. K. Agarwal	SECR
14.	S. K. Chaturvedi	RDSO
15.	Ranjana Dhawan	RDSO
16.	Kamlesh Chakraborty	ER
17.	Subrata Ranjan Das	ER
18.	Ratikanta Das	ER
19.	Buddhadev Kundu	ER
20.	Anil Kr. Singh	ECR
21.	Ram Vijay Rai	ECR
22.	Willim Jit Singh	NR
23.	P. K. Panigrahi	ECoR

1	2	3
24.	Z. Ajeesudeen	ICF
25.	S. Appala Raju	SCR
26.	G. V. Sudhakar	SCR
27.	R. K. Khare	SCR
28.	G. Gnanasekharan	SCR
29.	T. A. L. N. Prasad	SCR
30.	B. V. V. Nagendra Prasad	SCR
31.	A. Balaji Rao	SCR
32.	A. K. Gupta	SCR
33.	JSV Ramarao	SCR
34.	M. Niranjana Kumar	SCR
35.	S. Kondapa Naidu	SCR
36.	V. Sankaranarayanan	SR
37.	V. Thiagarajan	SR
38.	Sathya Pragana M. H.	SWR
39.	J. Samson Vijayakumar	SR
40.	B. N. Jha	NFR
41.	H. C. Pandey	RDSO
42.	Bhagwan Mallik	NR
43.	Madan Lal Chawla	NR
44.	Vijay Kumar	NR
45.	Neeraj Dubey	WCR
46.	R. K. Pandey	CR
47.	A. V. Kulkarni	CR
48.	D. D. Lolage	CR
49.	D. K. Tiwari	NCR
50.	Deep Kumar Sharma	NR
51.	R. P. Chohan	CR
52.	Rashmi Kumar	NR
53.	Naresh Singh Chauhan	NR
54.	Greesh Chandra (SC)	RDSO Promoted against SC Vacancy
55.	Ravindranatha Das (SC)	SR Promoted against SC Vacancy
56.	Santosh Nagle (SC)	SECR Promoted against SC Vacancy
57.	U. C. Nayak (SC)	ECoR Promoted against SC Vacancy
58.	J. Atchi Babu (SC)	ECoR Promoted against SC Vacancy

1	2	3
59.	P. C. Das (SC)	NFR Promoted against SC Vacancy
60.	G. Sinha Roy (SC)	NFR Promoted against SC Vacancy
61.	D. Das (SC)	NFR Promoted against SC Vacancy
62.	S. Barma (SC)	NFR Promoted against SC Vacancy
63.	C. Hembram (ST)	ECoR Promoted against ST Vacancy
64.	B. R. Mishra	NFR

PANEL FOR 2011-2012

1.	L. N. Sharma	NWR
2.	H. K. Dhawan	RDSO
3.	N. Balasubramanian	SR
4.	K. R. Prakash	SR
5.	K. R. Dey	NFR
6.	Arun Kumar Mittal	NR
7.	Vinod Kumar Talwar	NR
8.	Sudhir Kumar	ECR
9.	B. K. Paliwal	WCR
10.	Pradeep Kumar Paliwal	NCR
11.	P. K. Singh	NFR
12.	Jai Prakash (SC)	NFR
13.	S. Sengupta	NFR
14.	A. K. Sarma	NFR
15.	Ajoy Mazumdar	NFR
16.	Alok Kr. Das	NFR
17.	S. K. Guha	NFR
18.	S. Gorge	NFR
19.	A. N. Gupta	RDSO
20.	Ritu Raj	RDSO
21.	K. C. Mishra	ER
22.	Animesh Saha	ER
23.	D. Konar	ER
24.	S. Biswas	ER
25.	D. Bakshi	ER

1	2	3
26.	D. S. Srivastava	ECR
27.	S. K. Ojha	ECR
28.	L. N. Nandi	ER
29.	P. Ganesh Babu	SCR
30.	B. Sarkar	ER
31.	G. S. Tiwari	ECR
32.	A. K. Singh	NER
33.	Anil Sapray	NER
34.	Subhash Chand Verma	NWR
35.	Sanjay Chourasia	CR
36.	B. S. Rajan (SC)	SR
37.	P. Suseendran	SR
38.	V. Rajendran	SR
39.	M. R. Mohan	SR
40.	T. Ravi	SR
41.	M. Gururajan	SR
42.	S. Anbalagan	SR
43.	Chacko George	SR
44.	S. Meyappan	SR
45.	A. Senguttuvel	SR
46.	A. Muniasamy	SR
47.	Subhas Basu	SER
48.	S. C. Koley	SER
49.	A. K. Bhowmick	SER
50.	D. Satyanarayana	SECR
51.	A. V. Ramarayulu	ECoR
52.	Srinivas Sahoo	ECoR
53.	M. N. S. Ramesh	ECoR
54.	M. R. Panda	ECoR
55.	D. Sunil Paul	SER
56.	S. H. Malbhage (SC)	CR Promoted against SC Vacancy
57.	A. K. Diwakar (SC)	WR Promoted against SC Vacancy
58.	Prag Prasad (SC)	NR Promoted against SC Vacancy

1	2	3
59. Ramdas Kori (SC)	WR	Promoted against SC Vacancy
60. T. Sanjeevaiah (SC)	SCR	Promoted against SC Vacancy
61. B. Vijaya Kumar (SC)	SCR	Promoted against SC Vacancy
62. M. L. Arya (SC)	NR	Promoted against SC Vacancy
63. P. Sivaram (SC)	SCR	Promoted against SC Vacancy
64. Ramakrishnan. R (ST)	SR	Promoted against ST Vacancy
65. Manish I. Lawankar (ST)	SECR	Promoted against ST Vacancy

H. K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

The 22nd February 2013

No. ERB-I/2011/2/44—Shri Anjum Parvez, SG/IRSE, OSD (Project Monitoring), Railway Board on his promotion to Senior Administrative Grade has been appointed as Executive Director (Project Monitoring), Railway Board with effect from the afternoon of 31.12.2012.

H. K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2012/2/16—The President is pleased to appoint Shri B. N. Mohapatra, SAG/IRAS, Executive Director, Finance (Expenditure)-I, Railway Board as Adviser, Finance (Expenditure), Railway Board on promotion to HA Grade with effect from afternoon of 28.01.2013.

H. K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2012/2/25—The President is pleased to appoint Shri P. V. Vaidialingam, SAG/IRAS, Executive Director Accounts, Railway Board as Adviser (Accounts), Railway Board on promotion to HA Grade with effect from afternoon of 28.01.2013.

H. K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

The 28th February 2013

No. ERB-I/2007/10/4.—Shri Bhagat Singh, Section Officer, Railway Board retired from service with effect from the

afternoon of 31.01.2013, on attaining the age of superannuation.

H. K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

The 6th March 2013

No. E(GP)2010/3/14—The President is pleased to appoint the undermentioned 2 Group 'B' officers of Printing and Stationery Department of Indian Railways as Senior Manager (Printing & Stationery) in Group 'A'/Senior Scale on regular basis, with effect from 01.01.2013.

PANEL FOR 2011-12

1. Shri Sankar Roy
(Working in South Eastern Railway)
2. Shri S. Kannan (SC)
(Working in Eastern Railway)

H. K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 27th February 2013

No. A-22012/1/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sunil Mishra (CSL No. 1717) Central Secretariat/Service Officer of SGSL 1995, as Joint Secretary (in situ) in the Ministry of Shipping in SAG in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- Grade Pay, with effect from 20.02.2013 (FN).

D. K. PURBEY, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 1st March 2013

No. 09/2012 (F. No. 12/05/2012-Adm.II)—On attaining the age of superannuation, Smt. Alpna Das Gupta, Principal Staff Officer, Ministry of Power, retired from Government Service on the afternoon of the 28th February, 2013.

P. P. BOSE, Under Secy.

The 6th March 2013

No. 4/2013 (F. No. A-35018/1/2010-Adm.I)—Shri Kaushal Kishore Agrawal, Member (Grid Operation & Distribution), Central Electricity Authority retired from Government Service on attaining the age of superannuation, in the afternoon of 28th February, 2013.

P. P. BOSE, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 5th March 2013

No. 11/2013 [F. No. 2/4/98-Admn.Pt (Vol.I)]—The President is pleased to appoint Ms. Urvilla Khati, IRPS (1986) as Joint Secretary in the Ministry of Water Resources in PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- (Grade Pay), against a newly created post of Joint Secretary with effect from the forenoon of 01.03.2013, for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier. The officer is designated as Joint Secretary (PP) with effect from the same date.

L. P. SHARMA, Under Secy.

No. 12/2013 (F. No. 11/6/2012)—Consequent upon the transfer of Shri Nagendra Kumar-II, SO & CPIO (Water Quality Cell) under Rotational Transfer Policy on 31.01.2013, Shri B. L. Meena, Under Secretary & CPIO in respect of matters of Brahmaputra & Barak Wing other than Hydrology Project is designated as CPIO in respect of Water Quality Cell also, in terms of Section-5 (1) of the Right to Information Act, 2005.

L. P. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 31st January 2013

No. A-12025/1/2009-IIS (Vol. III)117—On the basis of the result of the Civil Services Examination 2010 (Reserve List), the President is pleased to appoint the following candidates in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Rank No.	Date of appointment
1.	Shri Amit Kumar	938	14.01.2013 (FN)
2.	Ms. Sweta Singh	1015	21.01.2013 (FN)
3.	Sh. Nirgude Yogesh Babanrao	1028	24.12.2012 (FN)
4.	Ms. M. Leela Meenatchi	1037	05.12.2012 (FN)

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. They have been posted as Assistant Directors in the following media units until further orders:—

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Shri Amit Kumar | — PIB, New Delhi |
| 2. Ms. Sweta Singh | — Doordarshan News New Delhi |

3. Sh. Nirgude Yogesh Babanrao — PIB, New Delhi

4. Ms M. Leela Meenatchi — Publications Division, New Delhi

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

CORRIGENDUM

No. A-12025/1/2009-IIS (Vol. III)117—In partial modification of this Ministry's Notification of even No. dated 26th December, 2012, the date of joining of Shri Nadeem Thufail. T mentioned at S. No. 6 may be read as of 6th December, 2012 (Forenoon).

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110001, the 18th February 2013

No. 83/2013 (F. No. A-22012/6/2012-Admn. II)—Consequent upon his promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on ad-hoc basis vide DoPT's Order No. 4/2/2013-CS-I (D) dated 29.01.2013, the President is pleased to appoint Shri P. L. Verma, (CSL No. 5420), Grade-I Officer (Under Secretary) of the Central Secretariat Service cadre of this Ministry, as Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service cadre of Ministry of Information & Broadcasting in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 01.02.2013 (F/N). He is taken on the rolls of the Main Sectt. as Deputy Secretary with effect from the same date i.e. 01.02.2013 (F/N). Further, his ad-hoc promotion is subject to the conditions as laid down in DoPT's Order ibid.

2. Consequent upon his promotion as Deputy Secretary, Shri P. L. Verma is hereby given assignment as Deputy Secretary [B (D) & B (Fin.)] in the Main Sectt. with effect from 19.02.2013 (F/N) and until further orders.

S. S. BEDI, Under Secy.

The 19th February 2013

No. 89/2013 (F. No. 6/2/2007-Admn. II)—The President is pleased to appoint Shri Jitendra Shankar Mathur, IAS (MP : 82), Additional Secretary in Ministry of Information & Broadcasting as Additional Secretary & Financial Adviser in M/o Information and Broadcasting with effect from 18.02.2013 (FN) i.e. the date of assumption of charge of the post of Additional Secretary & Financial Adviser.

S. S. BEDI, Under Secy.

No. 90/2013 (F. No. 6/2/2007-Admn. II)—The President is pleased to appoint Shri Chirravuri Viswanath, IAS (AP : 81), Additional Secretary & Financial Adviser in Ministry of

Information & Broadcasting as Additional Secretary in M/o Information and Broadcasting with effect from 18.02.2013 (F/N) i.e. the date of assumption of charge of the post of Additional Secretary.

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL FACTORY
ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES

Mumbai-22, the 28th February 2013

No. 39/3/2009-Estt.—In exercise of powers conferred under section 5(1) read with section 2(c) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes (D.G.F.A.S.L.I.), Ministry of Labour & Employment designate Shri N. K. Rustagi, Director (ST/P), CLI, Mumbai as Central Public Information Officer in respect of the 'Public Authority' namely, the D.G.F.A.S.L.I., Mumbai. In the absence of

Shri N. K. Rustagi, Shri R. N. Meena, Deputy Director (ST/P), CLI, Mumbai will act as Central Public Information Officer.

Shri S. B. Mathur, Director General, D.G.F.A.S.L.I., Mumbai shall be the senior officer for the purpose of Section 19(1) of the said Act.

S. N. BORKAR, Dir. (s)
& Head of Office
for Director General

New Delhi, the 05th March 2013

No. A-32022/01/2012-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri B. M. Patnaik, Section Officer of CSS Cadre of the Ministry of Labour & Employment as Desk Officer in the Ministry of Labour & Employment with effect from 21st February, 2013 (F/N).

A. K. THAKUR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013